




आमन लेखनी



अपनाएं ये हैबिट्स जिणेंगे 100 साल....

हियरिंग लॉस की वजह बनता.....

वर्ष : 10

अंक : 208

लखनऊ, 08 जुलाई, सोमवार 2024

पृष्ठ : 08

मूल्य : 2.00 रुपए

श्रावस्ती और कुशीनगर में बाढ़ में फंसे 87 लोगों की रेस्क्यू कर बचायी गयी जान

सीएम योगी द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुस्तैदी बढ़ाने के आदेश के बाद अधिकारियों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

● श्रावस्ती में बाढ़ में फंसे 11 और कुशीनगर में 76 लोगों को किया गया रेस्क्यू

- श्रावस्ती के 18 गांव के करीब 400 ग्रामीणों को बाढ़ को देखते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया

- कुशीनगर में रेस्क्यू के दौरान फंसे मवेशियों को भी सुरक्षित निकाला गया

- सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को 24 घंटे के अंदर क्षतिग्रस्त फसल की सर्वे रिपोर्ट सौंपने के दिव्य निर्देश

के निर्देश के बाद अतिसंवेदनशील और संवेदनशील जिलों के अधिकारी हरकत में आ गये हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद अधिकारी अपने जिलों में बाढ़ की स्थितियों पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। इसी क्रम में नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक पांच लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने से श्रावस्ती और कुशीनगर में बाढ़ में फंसे 87 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित निकाला गया है। इस दौरान कुशीनगर में बाढ़ में फंसे 20 मवेशियों को भी बचाया गया। वहीं सीएम योगी ने नेपाल से छोड़े गये पानी से प्रभावित श्रावस्ती और कुशीनगर के जिलाधिकारियों को अधिकारियों को क्षतिग्रस्त फसल की सर्वे रिपोर्ट सौंपने के दिव्य निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने शासनस्तर के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त फसल की सर्वे रिपोर्ट मिलते ही तत्काल मुआवजा देने का आदेश दिया है। हालांकि अभी इन जिलों में स्थिति

सामान्य है, जबकि कुछ ही इलाकों में फसलों को नुकसान हुआ है।

रात आठ बजे मिली सूचना, सुबह 3 बजे 11 को सुरक्षित निकाला गया

राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि शनिवार रात करीब आठ बजे राज्य स्तरीय इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को श्रावस्ती के तहसील जमुनहा की ग्राम पंचायत गजोभरी के ग्राम मोहनपुर भरथा एवं केवटन पुरवा में नेपाल से अचानक छोड़े गये पानी में 11 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली, जिसमें तीन बच्चे, पांच महिलाएं और 3 पुरुष शामिल थे। सूचना मिलते ही तत्काल श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी को जानकारी दी गयी। जिलाधिकारी अपनी टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंचे। जिला प्रशासन एवं फ्लड पीएसी की टीमों ने ज्वॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लगभग आठ घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।



इसके बाद सभी का चिकित्सकों की टीम द्वारा प्राथमिक उपचार भी कराया गया। साथ ही सभी पीड़ितों को राप्ती बैराज स्थित गेस्ट हाउस में पहुंचाया गया। देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि लाल भूषण सुशील ने बताया कि सभी पीएसी की टीमों ने ज्वॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लगभग आठ घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

जा रही हैं।

बाढ़ में कुशीनगर के नारायणपुर के एक टापू पर फंसे 76 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

राहत आयुक्त ने बताया कि शनिवार रात करीब आठ बजे राज्य स्तरीय इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद देवघाट बैराज से 5,71,850 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना मिली। इस पर कुशीनगर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को बड़ी गंड़क में बाल्मीकि नगर बैराज द्वारा 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की संभावना पर तहसील खड्डा के गांवों के प्रभावित होने की तत्काल जानकारी दी गयी। इसके बाद कुशीनगर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने अपनी टीम के साथ तहसील खड्डा के प्रभावित 13 गांवों का निरीक्षण किया। साथ ही गांववासियों से गांव को खाली करने की अपील की। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान तहसील खड्डा के नारायणपुर के एक टापू पर

कुछ लोगों के साथ मवेशियों के फंसे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने घंटों की कड़ी मशकत के बाद 76 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा। इस दौरान टीम ने 20 मवेशियों को भी सुरक्षित बचाया। वहीं बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। यह पर उन्हे पौष्टिक और गरम खाने के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। इसके साथ ग्रामीणों के मवेशियों के लिए विशेष इंतजाम किये गये हैं।

सीएम बोले, बाढ़ से हुई जनहानि-धनहानि का तत्काल मुआवजा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह तड़के नेपाल से छोड़े गये पानी से प्रभावित श्रावस्ती और कुशीनगर के जिलाधिकारियों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी

हासिल की। उन्होंने सीएम को बताया कि रेस्क्यू कर 87 लोगों के साथ 20 मवेशियों को भी बचाया गया है। इस पर सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त फसल का 24 घंटे के अंदर सर्वे कराकर शासन को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होंने शासनस्तर के अधिकारियों से बात कर क्षतिग्रस्त फसलों की रिपोर्ट मिलते ही तत्काल मुआवजा देने का आदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रभावित जिलों के अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखें और प्रभावित लोगों को मदद प्रदान करें। उन्होंने आपदा से हुई जनहानि से प्रभावित परिवारों को अनुमन्य रहत राशि अविर्लंब प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को नुकसान पहुंचा अथवा पशु हानि हुई, ऐसे प्रभावितों को तत्काल अनुमन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में लोगों का उत्साह, उत्कृष्ट कार्य हमारी सबसे बड़ी ताकत : पीएम मोदी

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों का उत्कृष्ट कार्य तथा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का उत्साह देश की सबसे बड़ी ताकत है। जैन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन (जेआईटीओ) के इनक्यूबेशन इन्वेंशन फंड के सातवें स्थापना दिवस पर लिखित संदेश में मोदी ने कहा कि भारत के प्रति दुनियाभर में जिस तरह का आशावाद और भरोसा देखा जा रहा है, वह देश की ताकत को दिखाता है। मोदी ने कहा, भारत अपार संभावनाओं वाला देश है।



विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे देशवासियों की भागीदारी और देश के विकास के लिए उनका उत्साह हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करना और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। मोदी ने कहा, आज का आशावाद और हमारी क्षमताओं में अटूट विश्वास अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा और व्यापार सहित सभी क्षेत्रों तक फैला हुआ है। जेआईटीओ जैसे संगठनों ने पिछले दशक में इन उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण में योगदान दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चल रहे प्रदेशव्यापी पीडीपी रोपण अभियान के क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में बरगद का पेड़ लगाकर पीडीपी रोपण अभियान का समापन किया।



अखिलेश यादव द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बरगद का पेड़ रोपण किया गया। उन्होंने कहा कि

पृथ्वी को हरा-भरा रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाना और उनकी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। आज ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वृक्षारोपण और वनावरण बढ़ाना जरूरी है। समाजवादी सरकार के समय उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण के बढ़ाने की दिशा में काफी कार्य हुए थे। रवियों, झीलों, नहरों के किनारे पार्कों में खाली स्थानों पर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए गए

थे, साथ ही लगाए गये पेड़ों की देखभाल की गयी थी। समाजवादी सरकार में राजधानी लखनऊ में बनाए गए डॉ0 राम मनोहर लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, गोमती रिवरफ्रंट, लखनऊ पीजीआई में लगाए गए पेड़ इसके उदाहरण हैं। इसी तरह से पूरे प्रदेश में पेड़ लगाए गए। पर्यावरण संरक्षण और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए हर वर्ष की तरह इस साल भी समाजवादियों ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर बड़ी संख्या में नीम, पीपल और बरगद के पेड़ लगाए हैं। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सर्वश्री

राजेन्द्र चौधरी, श्याम लाल पाल, विधायक एवं पूर्वमंत्री रविदास मेहरोत्रा पूर्व मंत्री याशर शाह, पूर्व सांसद अरविंद कुमार सिंह पूर्व सांसद आलोक तिवारी, विधायक मनोज पारस, पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह, पूर्व विधायक सतीश निगम, रुदौली नगर पालिका के अध्यक्ष जगबजर अली, खालिद शेखाना, कीर्ति कोल, फहीमुद्दीन चैयारमैन बदायूं, तनवीर हसन, विजय सिंह, त्रिवेणी पाल, दिलीप कमलापुरी, सागर धानुक समेत बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

संक्षिप्त समाचार

असम में बाढ़ से स्थिति अब भी गंभीर, छह और लोगों की मौत

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नयी दिल्ली। असम में शनिवार को भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रहने के साथ ही छह और लोगों की मौत हो गई। राज्य की प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से करीब 24 लाख लोग प्रभावित हैं। एक आधिकारिक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमएफ) के बुलेटिन के अनुसार, विनाशकारी बाढ़ के चलते चराईदेव में दो तथा ग्वालपाड़ा, मेरीगांव, सोनितपुर और तिनसुकिया जिलों में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस साल असम में बाढ़, भूस्खलन और तूफान से 72 लोगों की मौत हो चुकी है। बुलेटिन के अनुसार, 29 जिलों में बाढ़ से कुल 23,96,648 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 68,768.5 हेक्टेयर फसल जलमग्न हो गई है।

वनरक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 11 लोग गिरफ्तार

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नयी दिल्ली। विशेष कार्यबल (एसओजी) व पुलिस ने वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2022 पेपर लीक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने यहां एक बयान में बताया कि बांसवाड़ा जिले में प्रवीण मालवीया व उसकी पत्नी सविता को पांच जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। बयान के मुताबिक, इसके बाद शनिवार को इस मामले में सुरमा डामोर, सुभाष डंडोड, विरसिंह, शैला, निरमा डामोर, शिल्पा मंडा, संगीता गारासिया, ईश्वरलाल और अभिमन्यु को गिरफ्तार किया गया।

पहाड़ी अनुष्ठान के बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा रथों पर सवार

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

पुरी (ओडिशा)। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में तीन घंटे के पहाड़ी अनुष्ठान के सम्पन्न होने के बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा रविवार को अपने-अपने रथों में सवार हो गए। पहाड़ी अनुष्ठान पूर्वाह्न करीब सवे 11 बजे आरंभ हुआ और जब भगवान सुदर्शन को सबसे पहले देवी सुभद्रा के रथ दर्पदलन तक ले जाया गया तो पुरी मंदिर के सिंहद्वार पर घंटियों, शंखों



और मंजीरों की ध्वनियों के बीच ब्रह्मांडों ने जय जगन्नाथ के जयकारे लगाए। भगवान सुदर्शन के पीछे-पीछे भगवान बलभद्र को उनके तालध्वज

दर्पदलन रथ तक लाए। अंत में, भगवान जगन्नाथ को घंटियों की ध्वनि के बीच एक पारंपरिक शोभा यात्रा निकालकर नंदीचोप रथ पर ले जाया गया। देवी-देवताओं को मंदिर से रथों तक ले जाने का पहाड़ी अनुष्ठान अपराह्न करीब सवा दो बजे सम्पन्न हुआ। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को रत्न जड़ित सिंहासन से उतारकर 22 सिंहियों (बैसी पहाचा) के माध्यम से सिंह द्वार से होकर एक विस्तृत शाही अनुष्ठान पहाड़ी के जरिए मंदिर से बाहर लाया

गया। मंदिर के गर्भगृह से मुख्य देवताओं को बाहर लाने से पहले मंगला आरती और मेलम जैसे कई पारंपरिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। तीनों भव्य रथ अब मंदिर के सिंहद्वार के सामने गुंडिचा मंदिर की ओर पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं। पहाड़ी अनुष्ठान पूरा होने के बाद पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती अपने रथों पर सवार भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन करेंगे।

समाज सेवामें पंडित गोपबन्धु दास का योगदान अविस्मरणीय : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को कहा कि उक्तलमणि पंडित गोपबन्धु दास का समाज सेवा, साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता में योगदान अविस्मरणीय है। वह यहां दास की 96वीं पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। मुर्मू ने कहा, यह मायने नहीं रखता कि कोई व्यक्ति कितना लंबा जीवन जीता है, बल्कि यह मायने रखता है कि वह किस तरह का जीवन जीता है। यानी

किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का मूल्यांकन उसके समाज और देश के प्रति योगदान के आधार पर ही किया जाता है। उन्होंने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि पंडित गोपबन्धु दास ने अपने छोटे से जीवनकाल में विभिन्न अच्छे कार्य किए। मुर्मू ने कहा कि दास अच्छी तरह जानते थे कि कोई भी समाज या राष्ट्र उचित शिक्षा के बिना प्रगति नहीं कर सकता है और इसीलिए उन्होंने पुरी जिले के सत्यबाड़ी में मुक्ताकाश स्कूल की स्थापना की, जिसे वन विद्यालय के रूप में भी जाना जाता है।



केजरीवाल की भूमिका की जांच की जा रही : सीबीआई ने अदालत को बताया

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नयी दिल्ली। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संबंधित जांच ही लंबित है। अदालत ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी। केन्द्रीय एजेंसी ने अदालत को बताया कि अन्य आरोपियों के संबंध में जांच पूरी हो गई है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष सिसोदिया के वकीलों ने कहा कि एजेंसी ने पहले ही उच्चतम न्यायालय को सूचित कर दिया था कि सभी आरोपियों के संबंध में जांच तीन जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। इस पर सीबीआई के वकीलों ने कहा कि जून के बाद नए तथ्य सामने आए हैं और वे



उच्चतम न्यायालय को इसकी जानकारी देंगे। विशेष लोक अभियोजक डी पी सिंह ने अदालत को बताया कि मामले में सभी आरोपियों की भूमिका की जांच की गई है और केवल केजरीवाल की भूमिका की जांच बाकी है। अदालत ने सिसोदिया को अपने पटपटगंज विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धनराशि जारी करने की भी

लोको पायलट के कामकाजी हालात में सुधार के लिए संसद में आवाज उठाएगा इंडिया गठबंधन : राहुल गांधी

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नयी दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को लोको पायलट से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन उनके अधिकारों और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए संसद में आवाज उठाएगा। गांधी ने नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट के साथ अपनी हालिया बातचीत का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट कर यह टिप्पणी की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में लोको पायलट की जिंदगी की गाड़ी पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। उन्होंने कहा कि लोको पायलट को गर्मी से खोलते केबिन में बैठ कर 16-16 घंटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गांधी ने एक पोस्ट में कहा, जिनके



भरोसे करोड़ों जिंदगियां चलती हैं, उनकी अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यूनिन (मूजालय) जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित लोको पायलट के न काम के घंटों की कोई सीमा है और न ही उन्हें छुट्टी मिलती है। इस कारण वे शारीरिक और मानसिक रूप से टूट कर बीमार हो रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे हालात में लोको पायलट से ट्रेन चलवाना उनकी और यात्रियों की जान को जोखिम में डालना है। गांधी ने कहा

एएसोएसन के दक्षिण जोन अध्यक्ष ने शनिवार को लोको पायलट को लेकर गांधी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हालिया रेल दुर्घटनाओं के लिए खराब कामकाजी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया गया। आर. कुमारसन ने शुक्रवार को नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गांधी और लोको पायलट के बीच बातचीत के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुमारसन ने पीटीआई-भापा को बताया कि वे रेलवे में लोको पायलट और यात्रियों के सामने आने वाले गंभीर सुरक्षा मुद्दों की ओर गांधी का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। ट्रेन चालक संघों ने रेलवे के इस दावे का भी खंडन किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन लोको पायलट से मुलाकात की, जो दिल्ली मंडल से नहीं थे, बल्कि बाहर से लाये गये थे।

संक्षेप

युवक को टक्कर मारने वाली कार व चालक के विरूद्ध मुकदमा दर्ज

अमन लेखनी समाचार

मोहनलालगंज |मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के दहिबर गांव निवासी चन्द्रावती ने पुलिस से शिकायत करते हुये बताया बीती 2जुलाई को पति रामचन्द्र घर से खुजौली बाजार जा रहे थे,बाजार से पांच सौ मीटर पहले तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने पति को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी दुर्घटना में पति गम्भीर रूप से घायल हो गया।सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घायल पति को इलाज के लिये सीएफसी लेकर गयी,जहां मौजूद डाक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद पति की हालत गम्भीर देखते हुये ट्रामा रेफर कर दिया।जहां भर्ती कर पति का इलाज जारी है और हालत गम्भीर बनी हुयी है।अतिरिक्त इंस्पेक्टर राम बाबू सिंह ने बताया पीड़िता के द्वारा दी गयी तहरीर पर कार के ज्ञात नम्बर व अज्ञात चालक के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरु कर दी गयी है।

सुसरालीजनों ने बहू को पीटा,मुकदमा दर्ज

अमन लेखनी समाचार

मोहनलालगंज |मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के फत्तेखेड़ा गांव निवासी राबिया बानो ने पुलिस से शिकायत करते हुये बताया उसके पति गुड्डू विदेश में नौकरी करते है और वो घर में अपने बच्चो के साथ अकेली रहती है,बीते शनिवार की रात नौ बजे के करीब वो अपने कमरे में बैठी थी तभी सास नेमुन निशा, देवर फडम व जेठानी खुशीदां अंदर घुस आये और गाली गालीज करने हुये लाठी डंडो व लात घुसो से उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी।वीख पुकार सुनकर अन्य परिजनों ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई।अतिरिक्त इंस्पेक्टर राम बाबू सिंह ने बताया पीड़िता की तहरीर पर सास,जेठानी व देवर के विरूद्ध घर में घुसकर मारपीट समेत अन्य धाराओ में मुकदमा दर्ज कर जांच शुकु कर दी गयी है।

घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप , मुकदमा दर्ज

अमन लेखनी समाचार

सरोजनीनगर, लखनऊ।बिजनौर के पटवारी मोहल्ला निवासी मैकू लाल ने मोहल्ले के ही राजा गौतम, संगीता, टुनटुन और पच्चो के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मैकूलाल का कहना है कि बीती 19 जून को अपराह्न करीब 3 बजे उसकी बहू रीना गौतम अपने घर के अंदर बैठी थी। तभी राजा, संगीता, टुनटुन और पच्चो अचानक उसके घर में घुस गए। जहां लोहे के रॉड से रीना के ऊपर हमला कर दिया। सिर पर लोहे का रॉड लगने से वह बेहोश हो गई। आरोपियों ने इस दौरान पीड़ित की पत्नी जमुना देवी को भी मारा पीटा और वहाँ से भाग गए। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं इस घटना में रीना गौतम गंभीर रूप से घायल हो गईं। जिस बंधरा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बिजनौर पुलिस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

हिंदू जागरण मंच ने राहुल गांधी का पुतला फूंक, की नारेबाजी

आक्रोश

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। संसद भवन में हिंदुओं के विरोध में काँग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान से हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों में रोष व्याप्त हो गया। मंगलवार की दोपहर हिंदू जागरण मंच के जिला सह संयोजक संतोष सिंह के नेतृत्व में रहीमाबाद चौराहे पर जुटे पदाधिकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंक दिया। हिंदू जागरण मंच सह संयोजक संतोष सिंह ने कहा कि संसद में नेता प्रतिपक्ष का बयान उनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है। उनकी हिन्दुओं के प्रति कुंठा को

बिस्तर के नीचे रखी राइफल से खेल रहे थे बच्चे, खींचतान में चली गोली, एक की मौत

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। आलमबाग के पूरन नगर में रविवार देर शाम अभिभावकों की लापरवाही से 13 वर्षीय शिवा की मौत हो गई। दरअसल वह बिस्तर के नीचे रखी लोडेड राइफल निकालकर अपने ममेरे भाई के साथ खेल रहा था। इस बीच खींचतान में गोली चल गई। सीने में दायीं ओर गोली लगने से शिवा की मौत हो गई।

मामा सब्जी खरीदने गए थे बाजार

शिवा और उसके परिवारीजनों मूल रूप से कालपी जलौन के रहने वाले हैं। यहां पुरननगर में मनोज शर्मा के मकान में किराए पर रह रहे हैं। रविवार शाम शिवा की बड़ी बहन रेनु किचन में खाना बना रही थी। मामा संजय सिंह सब्जी खरीदने बाजार गए थे। उनकी लोडेड राइफल बिस्तर के नीचे कमरे में रखी थी। शिवा और उसके ममेरे भाई

घायलों को उपचार के बहाने वाहन सवार अस्पताल में छोड़ फरार

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ, आशियाना क्षेत्र में बीते 2 जुलाई की शाम नशे में धुत एक बुलेट सवार ने सड़क किनारे खड़े दो मित्रो को टक्कर मार घायल कर दिया और भागने का प्रयास करने लगा मौजूद लोगो ने बुलेट सवार को पकड़ लिया जिसपर बुलेट सवार ने मौके पर अपनी बहन और साथियो को बुला लिया बहन ने घायलों का इलाज कराने के लिए एक निजी अस्पताल ले गई जहाँ से मौका पाकर घायलों को अस्पताल में छोड़ फरार हो गई उपचार के बाद पीड़ित ने आशियाना थाने पहुँच गाड़ी नंबर आधार पर पुलिस से शिकायत की है आलमबाग साकेतपुरी निवासी अजय कुमार दूबे पुत्र अरुण कुमार दूबे के मुताबिक बीते दो जुलाई की शाम करीब 8:00 बजे वह अपने मित्र अमित प्रजापति के साथ तेलीबाग से घर की ओर वापस लौट रहे थे इस बीच देवी खेड़ा पुल के पास मंदिर पर अपनी बाइक खड़ी कर पानी पीने के लिए रुके थे तभी सामने से अनियंत्रित तेज रफ्तार से बंगला बाजार को ओर से आ रही बुलेट जिसका मोटर

कांवड़ यात्रा व मोहर्रम को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित

●मोहनलालगंज कोतवाली में कांवड़ यात्रा व मोहर्रम को लेकर एसीपी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुयी आयोजित

अमन लेखनी समाचार

मोहनलालगंज |मोहनलालगंज कोतवाली में रविवार को शांति समिति की बैठक एसीपी राधा रमण सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें कांवड़ यात्रा और बैठक में मौजूद लोगों से ताजिया और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण रूप से मनाए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सांघवेनशील स्थलों पर विशेष सर्तकता व निगरानी रखी जायेगी। साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले तथा असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश

प्रदर्शित करता है। हिन्दू समाज देश की रक्षा के लिए आगे रहा है। उन पर की गई टिप्पणी छेदी मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने कहा नेता विपक्ष होने के कारण राहुल गांधी को सदन में जिम्मेदारी पूर्वक बयान देना चाहिए राहुल गांधी को अपने बयान को लेकर हिंदू समाज से मारफै



ओम ने बिस्तर के नीचे से राइफल निकाल ली। दोनों कमरे में राइफल से खेल रहे थे।

नाल पकड़कर अपनी ओर राइफल खींच रहा था शिवा

शिवा राइफल की नाल पकड़कर अपनी ओर खींच रहा था, ओम पिछने हिस्से को अपनी ओर खींचने लगा। इस बीच एकाएक गोली चल गई। गोली शिवा के सीने में लगी। आवाज सुनते ही रेनु भागकर किचन से दौड़ती

साइकिल में जोरदार टक्कर दी जिससे वह और उनके गम्भीर रूप से घायल हो गये वहाँ उपस्थित लोगो द्वारा बुलट वाले को पकड़ लिया गया जो कि काफी नशे में लडखड़ा रहा था। बुलट वाले ने फोन करके कुछ लोगो को बुलाया जो स्विफ्ट डिजायर मारुति यूपी 50 एचू 7555 से एक महिला के साथ दो अन्य लोग आए। महिला स्वयं को बुलट सवार की बहन बताते हुए गलती मानने लगी और बुलट सवार को डॉटकर वहाँ से भगा दिया और घायल अवस्था में उसे और उसके मित्र को अपनी कार में बैठाकर बंगलाबाजार स्थित आदर्श हास्पिटल इलाज के लिए ले आई अस्पताल में इलाज के दौरान महिला व उसके मित्र को अपनी कार में बैठाकर बंगलाबाजार स्थित आदर्श हास्पिटल इलाज के लिए ले आई अस्पताल में

इसके मित्र को अपनी कार में बैठाकर बंगलाबाजार स्थित आदर्श हास्पिटल इलाज के लिए ले आई अस्पताल में इलाज के दौरान महिला व उसके मित्र को अपनी कार में बैठाकर बंगलाबाजार स्थित आदर्श हास्पिटल इलाज के लिए ले आई अस्पताल में इलाज के दौरान पैर में फ्रैक्चर बताया है उपचार के बाद पीड़ित आशियाना थाने पहुँच गाड़ी नंबर आधार पर पुलिस से शिकायत किया है पुलिस मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाई में जुटी है

कांवड़ यात्रा व मोहर्रम को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित

ताजियादारो व मुस्लिम समुदाय के लोगो से थाना क्षेत्र में कर्बला के स्थानो को जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि ताजिया जो करूट पहले से रहा हो वही होना चाहिए। उन्होंने कहा कस्बे में होने वाले ताजिया के दौरान सड़क पर पूर्णतः जाम की स्थित उत्पन्न ना हो इसका भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा धार्मिक सद्भावना बनी रहनी चाहिए। यदि कहीं रूट या अन्य कोई समस्या आती है तो तत्काल प्रभारी निरीक्षक को इसकी जानकारी दें।अतिरिक्त निरीक्षक रामबाबू सिंह ने बैठक में मौजूद लोगो से ताजिया और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण रूप से मनाए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सांघवेनशील स्थलों पर विशेष सर्तकता व निगरानी रखी जायेगी। साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले तथा असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश

लखनऊ

लखनऊ, 08 जुलाई, सोमवार 2024

चाकू की नोक पर छीना कीमती मोबाइल फोन व नकदी

लखनऊ। मानक नगर थाना क्षेत्र में एक आठो सवार से चालक सहि इसकेत साथियों ने चाकू की नोक पर छीना एक सवारी से उसका कीमती मोबाइल फोन व हजारों की नकदी छीन आठो से धक्का दे फरार हो गए। मानक नगर थाना प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि मूल रूप से ग्राम व पोस्ट रणपुर थाना रेडसा जनपद सीतापुर निवासी अभय चौरसिया पुत्र सोनू चौरसिया के अनुसार वह दिल्ली में रहकर काम करता है। बीते 5 जुलाई को रात्रि वह लगभग 3 बजे सुबह चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतरा और उतरने के बाद मै बाहर आकर एक आठो ई-रिक्सा पर कैसरबाग जाने को पूछकर बैठ गया उस गाडी में चालक के अलावा दो लोग और मौजूद थे। आरोप है कि इस बीच आठो चालक उसे आठों में बैठाकर मानक नगर थाना क्षेत्र स्थित ताल कटोरा रोड आरडीएसओ में ओवरब्रिज के निचे लाकर उसे चाकू दिखा कर उसका कीमती मोबाइल सहित पांच हजार रुपये की नकदी छीन आठो से धक्का दे फरार हो गया।

तेज बारिश से सरोजनीनगर इलाके में कई जगह पेड़ों की डालें टूट कर विद्युत तारों पर गिरी

●पेड़ों की डालें टूटकर गिरने से कई इलाकों में विधुत सप्लाई रही टप

अमन लेखनी समाचार

सरोजनीनगर, लखनऊ। शनिवार रात तेज बारिश से सरोजनीनगर इलाके में कई जगह पेड़ों की डालें टूट कर विद्युत तारों पर गिर गईं। जिससे बंधरा, बिजनौर आदि क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। यहां गहरू पावर हाउस से पोषित रसूलपुर फीडर की हाई टेंशन विद्युत लाइन पर कई जगह पेड़ों की डालें टूटकर गिरने से करीब दर्जन भर से अधिक गांवों की विद्युत सप्लाई लगभग 19 घंटे तक पूरी तरह ठप रही। इससे उपभोक्ताओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शनिवार रात तेज बारिश की वजह से गहरू पावर हाउस से पोषित रसूलपुर फीडर की हाई टेंशन विद्युत लाइन के तारों पर एनबीआरआई जंगल के पास सिघड़ी के पेड़ की डाल और दरियापुर के पास महुआ के पेड़ की डाल व भटगांव में नीम के पेड़ की डाल टूटकर गिरने से विद्युत लाइन के

राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की मिली भगत से जमीन की फर्जी वरासत करने का आरोप

अमन लेखनी समाचार
सरोजनीनगर, लखनऊ। सरोजनीनगर के हरोनी निवासी नूर मोहम्मद ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की मिली भगत से कुछ लोगों द्वारा उसकी जमीन की फर्जी वरासत करने का आरोप लगाया है। उसने इसकी शिकायत शनिवार को तहसील दिवस में की। नूर मोहम्मद के मुताबिक उसकी भूमि खसरा क्रमांक 178 और 439 क्षेत्रफल संख्या: 0.0250 हेक्टेयर वह 0.4430 हेक्टेयर हरोनी में स्थित है और वह उसका मलिक होने के साथ ही उस पर काबिज भी है। नूर मोहम्मद का कहना है कि उक्त भूमि को हड़पने के उद्देश्य से कुछ लोगों ने कूटस्थित व फर्जी अप्रतों के जरिए राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम वरासत करा ली है। फिलहाल नूर मोहम्मद की शिकायत पर तहसील दिवस प्रभारी ने मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी है।

ट्रांसपोर्टर की मौत के मामले में मृतक की मां ने ट्रक चालक के खिलाफ कराई रिपोर्ट दर्ज

अमन लेखनी समाचार

सरोजनीनगर, लखनऊ। सरोजनीनगर में गुरुवार रात ट्रक बैक करते समय अचानक उसके नीचे आकर ट्रांसपोर्टर की हुई मौत के मामले में मृतक की मां तालकटोरा के आवास विकास कॉलोनी राजाजीपुरम निवासी बीनू ने घटना अंजाम देने वाले ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए सरोजनीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया चलें कि बीती गुरुवार रात तालकटोरा के राजाजीपुरम निवासी सुरेश मिश्रा का बेटा व ट्रांसपोटर् अतुल मिश्रा (27) सरोजनीनगर के ट्रांसपोर् नगर स्थित पार्किंग नंबर एक के पास अपने ट्रांसपोर् गोदाम के बाहर खड़ा था। तभी वहां सामान लेकर पहुंचे ट्रक का चालक अचानक अपना वाहन आगे पीछ करने

चाकू की नोक पर छीना कीमती मोबाइल फोन व नकदी

लखनऊ। मानक नगर थाना क्षेत्र में एक आठो सवार से चालक सहि इसकेत साथियों ने चाकू की नोक पर छीना एक सवारी से उसका कीमती मोबाइल फोन व हजारों की नकदी छीन आठो से धक्का दे फरार हो गए। मानक नगर थाना प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि मूल रूप से ग्राम व पोस्ट रणपुर थाना रेडसा जनपद सीतापुर निवासी अभय चौरसिया पुत्र सोनू चौरसिया के अनुसार वह दिल्ली में रहकर काम करता है। बीते 5 जुलाई को रात्रि वह लगभग 3 बजे सुबह चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतरा और उतरने के बाद मै बाहर आकर एक आठो ई-रिक्सा पर कैसरबाग जाने को पूछकर बैठ गया उस गाडी में चालक के अलावा दो लोग और मौजूद थे। आरोप है कि इस बीच आठो चालक उसे आठों में बैठाकर मानक नगर थाना क्षेत्र स्थित ताल कटोरा रोड आरडीएसओ में ओवरब्रिज के निचे लाकर उसे चाकू दिखा कर उसका कीमती मोबाइल सहित पांच हजार रुपये की नकदी छीन आठो से धक्का दे फरार हो गया।

तेज बारिश से सरोजनीनगर इलाके में कई जगह पेड़ों की डालें टूट कर विद्युत तारों पर गिरी

तार टूट गए। इसकी वजह से रात 10 बजे से रविवार शाम 5 बजे तक इस विद्युत लाइन की पूरी सप्लाई ठप रही। जिसके कारण औरावां, गढ़ी चुनौटी, रामचौरा, दरियापुर, भटगांव, वादे खेड़ा और रसूलपुर सहित इस फीडर से जुड़े गांवों में विद्युत सप्लाई नहीं हो सकी। विद्युत सप्लाई बंद रहने से उपभोक्ताओं के पंखे कुलर ना चल पाने के कारण वह रात में चैन की नींद नहीं सो सके और रविवार सुबह बूंद बूंद पानी को भी तरसना पड़ गया। इसी तरह बनी बाघ हाउस से जुड़े हरोनी फीडर में कई जगह फाल्ट आने से इससे जुड़े हरोनी, रौतापुर, बेती और लतीफ नगर सहित कई अन्य गांवों की विद्युत सप्लाई रात 10 बजे से रविवार तड़के 4 बजे तक करीब 6 घंटे ठप रही। इसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी तरह गहरू पावर हाउस से ही जुड़े चंद्रवाल फीडर में भी तकनीकी फाल्ट आने के कारण शनिवार रात 10 बजे सप्लाई ठप हो गई, जो रविवार सुबह करीब 8:30 बजे चालू हो सकी। इसके कारण इस

राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की मिली भगत से जमीन की फर्जी वरासत करने का आरोप

अमन लेखनी समाचार
सरोजनीनगर, लखनऊ। सरोजनीनगर के हरोनी निवासी नूर मोहम्मद ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की मिली भगत से कुछ लोगों द्वारा उसकी जमीन की फर्जी वरासत करने का आरोप लगाया है। उसने इसकी शिकायत शनिवार को तहसील दिवस में की। नूर मोहम्मद के मुताबिक उसकी भूमि खसरा क्रमांक 178 और 439 क्षेत्रफल संख्या: 0.0250 हेक्टेयर वह 0.4430 हेक्टेयर हरोनी में स्थित है और वह उसका मलिक होने के साथ ही उस पर काबिज भी है। नूर मोहम्मद का कहना है कि उक्त भूमि को हड़पने के उद्देश्य से कुछ लोगों ने कूटस्थित व फर्जी अप्रतों के जरिए राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम वरासत करा ली है। फिलहाल नूर मोहम्मद की शिकायत पर तहसील दिवस प्रभारी ने मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी है।

काँवड़ यात्रा व मुहर्रम त्यौहार को लेकर सरोजनीनगर थाने पर पीस कमेटी की बैठक की गई आयोजित

अमन लेखनी समाचार
सरोजनीनगर, लखनऊ। काँवड़ यात्रा व मुहर्रम त्यौहार को लेकर रविवार को सरोजनीनगर थाना प्रभारी शैलेंद्र गिरी द्वारा थाने पर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरोजनीनगर थाना प्रभारी द्वारा दोनों त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र गिरी ने बैठक में मौजूद लोगों से अपना ट्रक बड़ा दिया। जिससे उसकी चपेट में आकर अतुल घायल हो गया। बाद में जब उसे लोह बंधु अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वीनू का कहना है कि यह सब उक्त ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ है। फिलहाल सरोजनीनगर पुलिस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

किसान यूनियन ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने रविवार को विद्युत समस्या को लेकर माल चौराहे पर धरना देकर विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर शांत कराया। प्रदर्शन पर बैठे भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने कहा कि गर्मी और बरसात के मौसम में विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। घनी आबादी वाले इलाकों में जर्जर बंरे लाइन की समस्या बनी हुई है। जिससे आए दिन लाइनों में फॉल्ट हो रहे हैं, उपभोक्ताओं को दिन-रात करीब 24 घंटे से बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। आरोप



माल चौराहे पर विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते किसान

लगाया कि दोपहर को 33 केवी फाल्ट मिलने के बाद भी रविवार देर रात तक ज्वाइंटर नहीं पहुंचा है, जिससे नाराज किसानों ने जेई, एसडीओ के खिलाफ मुद्दाबाद के नारे लगा विरोध जताया साथ ही कहा कि समस्या को लेकर कोई भी अधिकारी व कर्मचारी फोन नहीं उठाता है। काफी देर तक हंगामा चला। हंगामे की सूचना पर माल थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता ने किसान

ढाई माह से लापता बुजुर्ग को पुलिस ने ट्रेन से मेजा घर

●मोहनलालगंज कस्बे में बीते कई दिनों से घूम रहे बुजुर्ग के कनार्टक में रहने वाले परिजनों से सम्पर्क कर पुलिस ने ट्रेन से भेजा घर

अमन लेखनी समाचार

मोहनलालगंज |मोहनलालगंज कस्बे में बीते कई दिनों से भूखे प्यासे घूम रहे बुजुर्ग के पास जाकर चौकी ईंचार्ज वीर बहादुर दुबे व सिपाही विकास जायसवाल ने बात की तो पहले तो उन्हे उसकी भाषा समझ नहीं आयी जिसके बाद भूखे प्यासे बुजुर्ग को ईंचार्ज चौकी पर लाकर पेट भर खाना खिलाने के बाद बुजुर्ग का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम मल्लेशष्पा निवासी भायनगर,जिला कोपल,कनार्टक बताया जिसके बाद चौकी ईंचार्ज ने एसीपी राधा रमण सिंह से बात कर उन्हे बुजुर्ग के पते के बारे में बताया जिसके बाद एसीपी ने बुजुर्ग के बताये गये पते के जिले के एस्पी से फोन पर बात कर परिजनों से सम्पर्क साधने की

2

लखनऊ, 08 जुलाई, सोमवार 2024

किसान यूनियन ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन

यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से फोन से वार्ता कर डेढ़ घंटे में बिजली सुचारू रूप से चालू किए जाने की बात कही। आश्वासन मिलने पर किसान यूनियन ने धरना किया समाप्त। साथ ही चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान और विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो पुना धरना दिया जाएगा। इस मौके पर किसान यूनियन जिलाध्यक्ष अतुल कुमार सहित भारी संख्या में किसान मौजूद रहे।

ढाई माह से लापता बुजुर्ग को पुलिस ने ट्रेन से मेजा घर

कोशिश की और कुछ देर में ही काथियाबी भी मिली, कनार्टक पुलिस ने बुजुर्ग के भायनगर में रहने वाले बेटे वीरू से सम्पर्क किया तो पता चला बुजुर्ग मल्लेशष्पा ढाई महीने से लापता है, कनार्टक पुलिस से बेटे का नम्बर मिलने के बाद चौकी ईंचार्ज ने उसके बेटे वीरू से बात की तो लखनऊ पहुंचने में कई दिन लगने की बात कही तो पुलिस ने उससे बुजुर्ग को ट्रेन से घर भेजने व निकटतम रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग को ट्रेन से उतार लेने की बात बटाते से कही तो वो राजी हो गया जिसके बाद शनिवार को सिपाही विकास जायसवाल व होमगार्ड ज्ञान सिंह बुजुर्ग मल्लेशष्पा को सरकरी जीप से लखनऊ के बादशाहनगर रेलवे स्टेशन ले जाकर ट्रेन का टिकट काटकर व खाने पीने का सामा 2न व कुछ पैसे देकर यशवंतपुर फास्ट एक्सप्रेस में बिठारक उसके घर कनार्टक के लिये रवाना कर बेटे को फोन कर ट्रेन में बिठाने की सूचना दी तो बेटे ने पुलिस को धन्यवाद दिया।क्षेत्रीय लोगो ने भी पुलिस की पराहना की।


सरोज गर्ग की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजली सभा का हुआ आयोजन

अमन लेखनी समाचार

मोहनलालगंज।यूपीएएल व एनसीपीएल एवं सहयोगी औद्योगिक समूहो के प्रबन्ध निदेशक सदीप गर्ग की दिवगांत मां सरोज गर्ग की प्रथम पुण्यतिथि पर रविवार को मोहनलालगंज में स्थित यूपीएएल फैक्ट्री में श्रद्धांजली सभा का आयोजन किया गया। फैक्ट्री परिसर में आयोजित श्रद्धांजली सभा में दिवंगत माता जी के चित्र पर महाप्रबंधक जी० ए० श्रीवासव व टेक्निकल जीएम अतनुदास, आशीष गुप्ता,बीबी पांडे समेत सभी अधिकारियो व कर्मचारियो ने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किये जिसके बाद फैक्ट्री के अधिकारियो व कर्मचारियो को भांग प्रसाद वितरित करने के बाद भोजन कराया गया।

छात्र ने साडी के सहारे फंडा लगा गवाईं जान

अमन लेखनी समाचार
लखनऊ। कृष्णा नगर कोतवाली इलाके में रहने वाले एक बी फार्मा के छात्र ने रविवार को अपने घर में लगे पंखे के हुक में साडी के सहारे फंडा लगा अपनी जान गवां दी।कृष्णा नगर कोतवाली प्रभारी पी के सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र स्थित विशेश्वर नगर सूर्य कांत चौरसिया अपनी दो बेटियों मृतक बेटे सहित पत्नी संग रहते हैं और वह रेलवे में कार्यरत हैं। परिजनों के अनुसार रविवार को उनके बेटे सुधांशु ने अपने कमरे में लगे पंखे के हुक में साडी का फंडा लगा आत्महत्या कर लिया।सूचना पर पहुंची स्थानीय थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।



संक्षेप

सद्विध हालत में युवती का फंदे से लटका मिला शव

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के मदनपुर गांव की रहने वाली युवती का शनिवार दोपहर सद्विध हालत में कमरे में दुपट्टे के सहारे शव लटका मिला। परिजनों को जानकारी होने पर घर में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के मदनपुर गांव के रहने वाले रामबाबू की 18 वर्षीय बेटी कामिनी अपने घर पर अकेली थी। परिजन खेत में धान (बेड़) की खुदाई कर रहे थे। दोपहर घर का दरवाजा बंद देख आसपास के लोगों ने परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घर के अंदर कमरे में दुपट्टे के सहारे शव लटका देख सन्न रह गए। बेटी की मौत को लेकर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की है। मृतका कामिनी के चार भाई सरवन, करन, प्रांशु, रंजीत व एक बड़ी बहन कल्पना सहित चंद्राकली का रो रो कर बेहाल होती रही। इम्पेक्टर अमनोश सिंह ने बताया कि जानकारी पर विधिक कार्रवाई की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खड़े ट्रक में घुसे बाइक सवार, एक की मौत, साथी घायल

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। पुरवा कोतवाली क्षेत्र के ग्यारह मील के निकट शनिवार देर रात खड़े ट्रक में पीछे से बाइक सवारों के घुसने से युवक की मौत और साथी जखमी हो गया। इलाज के लिए सीएचसी पहुँचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सोहरामऊ थाना क्षेत्र के बौकामऊ गांव के रहने वाले कमलेश यादव का 26 वर्षीय बेटा केशव अपने साथी मनोज पुत्र ओमप्रकाश निवासी पुरवा कस्बा के दीपक बिहार कालोनी मोहल्ला थाना पुरवा के साथ उन्नाव कचहरी में वकालत की प्रैक्टिस करने जाता था। शाम को घर वापस लौटते समय दही मोहनलालगंज मार्ग पुरवा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मार्ग पर खड़े ट्रक में पीछे से बाइक घुसा। हादसे के समय बाइक चला रहे केशव गंभीर रूप से जखमी हो गया। जबकि मनोज चोटिल हो गया। राहगीरों ने उन्हें एम्बुलेंस की मदद से पास की बिछिया सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया। जहां पर डॉक्टर ने केशव को मृत घोषित कर दिया व मनोज का उपचार कर घर भेज दिया गया। राहगीरों ने ही घटना की जानकारी पुरवा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की है। बाइक सवार हेल्मेट नहीं पहने थे। इम्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शिकायत पत्र मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को सम्मानित कर सेनानियों को दी श्रद्धांजलि

अमन लेखनी समाचार

बांगरमऊ, उन्नाव। क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित परिवारों को समाजसेवी शशांक शेखर शुक्ला ने हफोजाबाद स्थित अपने आवास पर आयोजित एक समारोह में स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सेनानी परिवारों के तमाम लोग उपस्थित रहे। क्षेत्र के ग्राम हाफिजाबाद में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित परिवारों के सम्मान समारोह को शुरूआत शशांक शेखर शुक्ला ने अपने बाबा, स्वर्गीय भूपेन्द्र नाथ शुक्ला (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष) को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की इसके बाद आगे हुए सेनानी परिवारों के सदस्यों ने भी अपने पूर्वजों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बोलते हुए

कूड़ा संग्रह करने के लिए डस्टविन वितरण का किया शुभारंभ

अमन लेखनी समाचार

सफीपुर, उन्नाव। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि एवम अधिशाषी अधिकारी ने एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर देवा रिशार्ट में प्रेस वार्ता कर नगर पंचायत की उपलब्धियां गिनाते हुए नगर को स्वच्छ बनाए रखने एवम स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए सभी सभासदों एवम कर्मचारियों को संकल्पित भाव से कार्य करने की प्रेरणा देते हुए घरों में कूड़ा संग्रह करने के लिए डस्टविन वितरण का शुभारंभ किया नगर पंचायत अध्यक्ष गरिमा बाजपेई के प्रतिनिधि / पति सौरभ बाजपेई एवम राजा बेटा एवम अधिशाषी अधिकारी विनीत श्रीवास्तव ने बताया कि नगर में 18200 मीटर नालों की वर्षा ऋतु में



जल निकासी हेतु 23 जून तक सफाई कराई जा चुकी है स्टेशन रोड पर जल निकासी हेतु समस्या को देखते हुए अस्थाई तौर पर पंपिंग सेट की व्यवस्था करके स्थाई हल निकालने का प्रयास जारी है अध्यक्ष प्रतिनिधि सौरभ बाजपेई ने बताया डोर डू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु चार लोडर, दो ई रिक्शा एवम ट्राई साइकिल के माध्यम से सभी पन्द्रह वार्ड में कार्य चलाया जा रहा है पंद्रहवें वित्त आयोग की

हरियाली अभियान के तहत नगरवासियों को हरियाली के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए नगर पंचायत अभियान चलाएगी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि एवम भाजपा नेता सौरभ बाजपेई ने नगर के विकास एवम सुंदर बनाने के लिए नगरवासियों सामाजिक कार्यकर्ताओं एवम पत्रकार वन्थुओ से सार्थक सुझाव की अपील करते हुए नगर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग की उम्मीद जताई इस मौके पर सभासद, अभिनव शर्मा, वसीम अहमद, शाकिब अली, नीरज कुशावाहा, संजय कुमार मंदू, बेचेलाल गुप्ता, वसीक अहमद, कृष्णपाल, ऐंग्ल हसन, लुकमान, रामखेलावन पाल, सभासद प्रतिनिधि राजू विमल, छन्नु, शाहरुख सफवी, तौहीद, सहित नगर पंचायत कर्मी मौजूद रहे।

लापता बेटे की पिता ने पुलिस से लगाई गुहार

अमन लेखनी समाचार

बांगरमऊ, उन्नाव। मजदूरी पर काम करने के लिए पंजाब गया युवक हुआ लापता। साथ ले गए युवक ने उसके बारे में परिजनों को जानकारी देने से इंकार कर दिया। इससे खुब्य पिता ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को शिकायत पत्र सौंप दो माह से लापता बेटे का पता लगाए जाने की गुहार लगाई है। मालूम हो कि बेहटा मुजावर क्षेत्र के ग्राम शादीपुर के मजरा किरकिलिया निवासी कमलेश ने सीओ को पत्र देकर कहा है कि उसके बेटे को बीती 5 मई को ग्राम कांटा गुलजारपुर निवासी एक व्यक्ति अपने साथ पंजाब मजदूरी कराने के लिए ले गया था। उसने बताया कि बीती 10 मई के बाद से बेटे का मोबाइल नंबर बंद आ रहा है। जिसके बाद उसने कांटा

गुलजारपुर निवासी युवक से जब अपने बेटे के विषय में पूछा तो उसने बताया उसका बेटा लापता हो गया है। बेटे के विषय में अधिक जानकारी करने पर वह गली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। मालूम हो कि उसने बेहटा मुजावर थाने में बेटे की पड़ताल करने के लिए दो बार तहरीर दी लेकिन पुलिस ने मामला पंजाब का बताकर उसे टहला दिया। इसके बाद पीड़ित पिता ने बांगरमऊ तहसील में समाधान दिवस में भी प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन अभी तक पुलिस ने उसके लापता हुए बेटे की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। पीड़ित ने सीओ को प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कर बेटे को साथ ले जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। सीओ अरविन्द चौरसिया ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

पानी में डूबने से मंद बुद्धि युवक की मौत

अमन लेखनी समाचार

बांगरमऊ, उन्नाव। ग्राम प्रधान व राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से एक तालाब से गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु मिट्टी खनन करवाकर गहरा गड्ढा बना दिया गया। जिससे बरसात का पानी भर गया। बीती सायं शौच करने गए एक मंदबुद्धि युवक की उसमें डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया।



बांगरमऊ तहसील के गांव महोलिया के पूर्व प्रधान की धिरेख में दर्ज खलिहान की भूमि पर एक ग्राम सभा में तालाब बनवाया गया था। जबकि वर्तमान ग्राम प्रधान व राजस्व कर्मियों द्वारा आपसी सहमति से गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण एजेंसी को इसी तालाब से मिट्टी उठवाई गई है। ग्रामीणों का कहना है निर्माण एजेंसी ने तालाब में तकरीबन 12 फिट से अधिक गहरा खड्डा बना दिया है। बारिश के चलते

इसमें पानी भरा हुआ है। घटनाक्रम के अनुसार गांव निवासी 23 वर्षीय उत्तम कुमार पुत्र छोटे लाल जो मानसिक रूप से कमजोर है। बीती सायं इसी तालाब के किनारे सौच आदि करने हेतु गया हुआ था। बताया है कि तभी पैर फिसलने से वह तालाब में गिर गया तथा काफी गहराई में चले जाने के चलते डूब गया। घटना के काफी देर बाद पता चलने पर खोजबीन कर उसका शव बाहर निकाला गया तथा

पहली बारिश ने खोली पोल, लाखों खर्च के बाद भी गलियों में भरा पानी

अमन लेखनी समाचार

बीघापुर, उन्नाव। पहली मूसलाधार बारिश ने ग्राम पंचायत के विकास की पोल खोल दी लाखों खर्च के बाद भी मुख्य मार्गों सहित गलियों में नालों का पानी जमा हो गया। पानी की निकासी नहीं होने से रास्तों में कीचड़ व गंदा पानी भर जाता है बूढ़े बच्चे महिलाएं पुरुष उसी से होकर गुजरना पड़ रहा है तहसील बीघापुर मुख्यालय पाटन के अंतर्गत विकासखंड सुमेरपुर बीघापुर व पुरवा के कुछ गांव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं शासन के द्वारा करोड़ों लाखों रुपए नाली खंडजा आदि को दुरुस्त करने के लिए नए निर्माण के लिए सरकार खर्च कर रही है लेकिन आंधे से अधिक कार्य कागजों पर ही बनकर खत्म हो जाते हैं मौके पर कार्य नहीं होते हैं मौके जांच कर देखा जाए तो सही हकीकत में समझ में आ जाएगा तहसील से लेकर ब्लॉक



ग्राम पंचायत के पैसों का बंदर बांट इस प्रकार होता है कि कोई अगर व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात करता है या प्रार्थना पत्र देता है तो सबसे पहले उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा देने की धमकी दी जाती है गरीब व्यक्ति अपनी हिम्मत फिर गरीब व्यक्ति अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है पहले ही बरसात में ग्रामीण क्षेत्र के लगभग प्रत्येक गांव की गलियां कीचड़ व पानी से भर गई है सफाई

कर्मचारी कभी भी नालियों को साफ नहीं करता है गांव की गरीब जनता बच्चे बुजुर्ग महिलाएं पुरुष दिन भर इस गंदे पानी से आते जाते हैं उनके घरों के सामने भरा पानी से प्रदूषण फैल रहा है कुछ लोग बड़ी हिम्मत करके पानी व कीचड़ नालियों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी उन समस्याओं की तरफ नहीं ध्यान देते हैं

भगवान श्री जगन्नाथ की निकाली गई शोभायात्रा

अमन लेखनी समाचार

शुक्लागंज, उन्नाव। शाम करीब पांच बजे नेहरू नगर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा व भाई बलभद्र की मूर्तियों को लकड़ी के रथ से नेहरू नगर से यात्रा निकली। जो राजधानी मार्ग अंबिकापुरम होते हुए त्रिभु नगर की ओर बढ़ी। जहां यात्रा का जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भगवान के रथ को अपने हाथों से खींचने को लेकर श्रद्धालुओं में प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। वहीं मोहल्लों से गुजरने के वक्त लोगों ने अपनी घरों की छतों से फूलों की वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राम दरबार, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, हनुमान जी, नंदी, गणेश लक्ष्मी की झंकी आकर्षण का केन्द्र रही। इसके साथ ही जगह-जगह शर्वत वितरण किया गया। राजधानी मार्ग स्थित अरविंद आचरन स्टोर के बाहर श्री श्याम रसोई की ओर से भंडारे का आयोजन कराया गया। इसी तरह राजधानी मार्ग पर मोनिका ट्रेडर्स के सामने अमरेन्द्र गुप्ता, संजु, रंजीत ने बिरिक्कट और पानी बांटा। वहीं दुर्गा मंदिर के पास प्रदीप शुक्ला ने कढ़ी चावल बांटा गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंगाघाट, उन्नाव व कई थानों का फोर्स थाका के दौरान मौजूद रहा। यात्रा का समापन रात के समय सब्जी मंडी स्थित कमल वर्मा के आवास पर हुआ।



हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

अमन लेखनी समाचार

हसनगंज, उन्नाव। पुस्तैनी जमीन का आदेश मृतक के पक्ष में जाने से विपक्षी आरोपी दो सगे भाइयों ने किसान की हत्या कर शव जला दिया था पुलिस ने दो आरोपियों को पुछड़ा चौराहे से गिरफ्तार कर हत्या में शामिल लोहे की रॉड बरामद कर न्यायालय में पेश किया जहा से उन्हें जेल भेज दिया गया।

हसनगंज कोतवाली क्षेत्र की नगर पंचायत न्योतनी के गांधीनगर मोहल्ला निवासी सुशील मौर्य 35 वर्ष 10 साल से आम की बाग में झोपड़ी बनाकर रह रहा था बीते 10 मई की सुबह उसका शव झोपड़ी में अधजला मिला था। मृतक के छोटे भाई ओमकार की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या

की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। घटना के खुलासे के लिए एस्पपी ने तीन टीमों गठित की थी। जिसमें स्वाट, सर्विलेंस और कोतवाली प्रभारी शामिल थी घटना के 1 महीना 25 दिन बाद पुलिस ने मृतक सुशील मौर्य के परिचारक व उनके विपक्षी मोहम्मद हलीम और उनके भतीजे मोहम्मद अब्दुल मजीद उर्फ गुड्डू एवं मोहम्मद हादी उर्फ पप्पू निवासी मोहल्ला गांधीनगर नगर का पुरतैनी जमीन पर कब्जेदारी को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक के पिता रामपाल ने जमीन पर कब्जा कर रखा था जिसका मुकदमा हसनगंज न्यायालय में विचाराधीन था न्यायालय से ही मृतक के पिता रामपाल के पक्ष में चार माह पहले आदेश आ गया था। चार माह पहले मृतक के पिता रामपाल का न्योतनी

पति-पत्नी के 27 विवाहित जोड़े आपसी कलह मुलाकर साथ रहने को हुए राजी

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। सिद्धार्थ शंकर मीना पुलिस अधीक्षक उन्नाव के कुशल निदेशन में रिजर्व पुलिस लाइन एवं विभिन्न थानों में स्थित महिला हेल्प डेस्क में पति-पत्नी के विवादित जोड़ों को बुलाया गया। परिवार परामर्शदाताओं एवं महिला हेल्पडेस्क की टीम द्वारा उनकी काउंसलिंग करते हुए उनके बीच उपजे विवाद को खत्म कराया गया तथा परिवार को टूटने से बचाया। तदोपरान्त महिला थाना से 07, परिवार परामर्श केन्द्र से 06, थाना सोहरामऊ से 05, थाना हसनगंज से 03, थाना अचलगंज से 02, थाना बांगरमऊ, थाना औरास, थाना बिहार व थाना गंगाघाट से 01-01 जोड़ों को बिना विवाद साथ रहने के वादे के साथ विवा किया गया। इतरोक्त पुनीत कार्य में डा0 आशीष श्रीवास्तव प्रभारी परिवार परामर्श समिति एवं सलाहकारों में डा0



मनीष सिंह सेंगर, राजेन्द्र सिंह सेंगर, डा0 शशि रंजना अग्निहोत्री, डा0 एस.के. पाण्डेय राम सनेही यादव, तबस्सुम नफीज अब्बास अली व डा0 सगीर अहमद एवं सहयोगी शिवेन्द्र सिंह चौहान, अंकित सिंह व पुलिस टीम से निरीक्षक संतोष कुमारी सिंह, महिला थानाध्यक्ष अर्चना, हंस भदौरिया, भागीरथी, लक्ष्मी सिंह, पूजा शर्मा, अंशू रानी, साधना, अल्का यादव, लक्ष्मी वर्मा, पूजा यादव, अंजली शर्मा, पूनम राजपूत, सेविका, शकुंतला, ज्योति कुमारी का विशेष योगदान रहा।

जग अरोग्य स्वास्थ्य मेले का हुआ आयोजन

अमन लेखनी समाचार

शुक्लागंज, उन्नाव। राजधानी मार्ग स्थित न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शुक्लागंज में मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में एलोपैथिक के डॉक्टरों ने मरीजों का परीक्षण किया गया। मरीजों को दवा बांटी गई। इसके अलावा डॉ0 रवि प्रकाश सचान, डॉ शिप्रा झा ने मरीजों को परामर्श देने के साथ ही दवाइयां बांटीं। इसके साथ ही अन्य डॉक्टरों ने भी मरीजों का परीक्षण किया। डॉक्टरों ने बताया कि मेले के दौरान 70 मरीजों का परीक्षण किया गया और उन्हें दवाइयां बांटी गईं हैं। जिसमें चर्म रोग, लीवर पेज से संबंधित, सांस, मधुमेह, उच्च रक्त चाप, खून की कमी, गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। वहीं मेले में आये खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों की जांच की गई।

प्रेस क्लब की बैठक का किया गया आयोजन

अमन लेखनी समाचार

शुक्लागंज, उन्नाव। प्रेस क्लब की एक आवश्यक बैठक गिरधर पैलेंस में संपन्न हुई। उक्त बैठक में प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री मयंक शुक्ला ने पद से त्यागपत्र देते हुए नए अध्यक्ष का चुनाव कराने का आग्रह किया। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकारों विजयकांत बाजपेई महेश मिश्रा, दिनेश त्रिवेदी, कामोद पांडे तथा पन्नालाल कुशावाहा ने उपस्थित पत्रकारों के आग्रह करने पर मयंक शुक्ला का त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया तथा सर्वसम्मत से मयंक शुक्ला को पुनः अध्यक्ष मनोनीत किया तथा श्री शुक्ला को नई कार्यकारिणी गठित करने का अधिकार दिया गया। सर्वसम्मत से पुनः मनोनीत अध्यक्ष मयंक शुक्ला ने दुजेन्द्र मिश्रा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बाबू पांडे को उपाध्यक्ष आलोक दीक्षित को महामंत्री, प्रमोद ग 2डिया को कोषाध्यक्ष, मनीष कुमार नीरज जायसवाल प्रमोद पासो अमन सक्स 4 नू विशाल मौर्य व धर्मेन्द्र शर्मा को कार्यकारिणी में शामिल किया।

नगर पंचायत के उप चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी रवाना

अमन लेखनी समाचार

हसनगंज, उन्नाव। मोहन नगर पंचायत की दो वार्डों में बीमारी के चलते सभासदों की मौत हो गई थी। जिस पर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उपचुनाव कराया जा रहा है। रविवार को तहसील के निर्वाचन कार्यालय से मोहन कस्बा के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हुई।

मूर्ति स्थापना के पूर्व निकाली गई कलश शोभायात्रा

अमन लेखनी समाचार

हसनगंज, उन्नाव। मोहन नगर पंचायत की दो वार्डों में बीमारी के चलते सभासदों की मौत हो गई थी। जिस पर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उपचुनाव कराया जा रहा है। रविवार को तहसील के निर्वाचन कार्यालय से मोहन कस्बा के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हुई।

मौत के लिए पोलिंग पार्टी रवाना

अमन लेखनी समाचार

हसनगंज, उन्नाव। मोहन नगर पंचायत की दो वार्डों में बीमारी के चलते सभासदों की मौत हो गई थी। जिस पर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उपचुनाव कराया जा रहा है। रविवार को तहसील के निर्वाचन कार्यालय से मोहन कस्बा के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हुई।

दुकान के बाहर खड़ी बाइक चोरों ने किया पार

अमन लेखनी समाचार

पुरवा, उन्नाव। दुकान के बाहर खड़ी बाइक को अज्ञात चोर ने कर दी पार पीड़ित ने कोतवाली मे तहरीर लिएमौरावां थाना क्षेत्र के ग्राम कोडरा निवासी दिलीपकुमार पुत्र सुरेश द्विवेदी ने कोतवाली मे तहरीर देते हुए बताया कि आज वह लगभग 1 बजे दोपहर को पुरवा बसस्टाण स्थित जायसवाल टायर की दुकान के पास आया था जहाँ वह अपनी बाईक को देशी शराब ठेका के सामने खड़ी कर पेशाब करने चला गया वापस आने पर गाड़ी नदारद मिली जिसके बाद उसने काफी खोजबीन की लेकिन पता नहीं चला /कोतवाली प्रभारी ने बताया मामला संज्ञान मे है जाँच कर कार्यवाही की जायेगी !

खेत काम कर रहे मजदूर को जहरीले कीड़े ने काटा मौत

अमन लेखनी समाचार

पुरवा, उन्नाव। क्षेत्र के ग्राम मदाखेडा मजरे पासखेडा निवासी रामबाबू रैदास पुत्र रामकुमार 45 जो किसान का काम करता है आज वह अपने साथियों के साथ ग्राम शीतलाखेडा मजरे भैसई कोयल मे धान की बेड लगाने के लिए गया था जहाँ बेड लगाने के दौरान ही वहाँ किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया जिससे उसकी हालत बिगड़ गयी साथ गये लोग जब तक कुछ समझते तब तक उसकी मौत हो गयी मौत की सूचना जैसे ही घर पहुँची घर मे कोहराम मच गया ! साथ गये लोग शव को लेकर गाँव पहुँचे तो पत्नी कुसुमा बेटी माधुरी दहाड मारकर रोने लगी परिवार मे कमाने वाले अकेले रामबाबू ही थे जिससे परिवार का खर्चा चलता था पति की मौत के बाद घर परिवार कैसे चलेगापरिजनों की सूचना पर पहुँची पुरवा पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया

अमन लेखनी समाचार

पुरवा, उन्नाव। क्षेत्र के ग्राम मदाखेडा मजरे पासखेडा निवासी रामबाबू रैदास पुत्र रामकुमार 45 जो किसान का काम करता है आज वह अपने साथियों के साथ ग्राम शीतलाखेडा मजरे भैसई कोयल मे धान की बेड लगाने के लिए गया था जहाँ बेड लगाने के दौरान ही वहाँ किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया जिससे उसकी हालत बिगड़ गयी साथ गये लोग जब तक कुछ समझते तब तक उसकी मौत हो गयी मौत की सूचना जैसे ही घर पहुँची घर मे कोहराम मच गया ! साथ गये लोग शव को लेकर गाँव पहुँचे तो पत्नी कुसुमा बेटी माधुरी दहाड मारकर रोने लगी परिवार मे कमाने वाले अकेले रामबाबू ही थे जिससे परिवार का खर्चा चलता था पति की मौत के बाद घर परिवार कैसे चलेगापरिजनों की सूचना पर पहुँची पुरवा पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया

मूर्ति स्थापना के पूर्व निकाली गई कलश शोभायात्रा



अमन लेखनी समाचार

निगम, समाजसेवी विमल द्विवेदी ने भण्डारे का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के आयोजक राजकिशोर शुक्ला ने सभी अतिथियों को पटका एवं पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अंकित शुक्ला, धर्ममंगल सिंह यादव, सावित्री शुक्ला, पिंकी शुक्ला, मीनाक्षी शुक्ला, किशोर सिंह, राजकिशोर तिवारी, अभिषेक शुक्ला, अंकित शुक्ला, मोनु पाल, जगन्नाथ पुजारी आदि लोग रहे।

सम्पादकीय

भारत संग वचनों पर खरा उतरना चीन की जिम्मेदारी

भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद है। भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) का सम्मान करता है और चीन इसका सम्मान नहीं करता है। अस्ताना में बैठक के दौरान भारत ने चीन को स्पष्ट कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) का सम्मान किया जाना चाहिए। सीमा प्रबंधन के लिए अतीत में दोनों पक्षों के बीच हुए संगत द्विपक्षीय समझौतों और नियमों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत के इस दृष्टिकोण को भी दोहराया कि दोनों पक्षों के बीच संबंध आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता पर आधारित होने चाहिए। भारत का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता दोनों देशों के बीच सामान्य संबंधों के लिए अहम है। अब सब कुछ चीन पर है कि वह एलएसी पर शांति की स्थापना के मार्ग पर कितना चलता है? सीमा पर शांति चीन की भी जिम्मेदारी है। दरअसल, भारत व चीन के बीच सीमा निर्धारण की प्रक्रिया चीनी पक्ष के हिसाब से विवादों में रही है। दोनों मुल्कों के बीच मैकमोहन रेखा से सीमा का निर्धारण है, इस पर दोनों मुल्कों की सहमति भी रही है, लेकिन बाद में चीन इस रेखा को पूर्णतया मानने को लेकर आनाकानी करता रहा है। दोनों देशों के बीच 3488 किमी की सीमा है, जिसमें चीन पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों के सीमा पर विवाद करता रहा है। सबसे दिलचस्प है कि चीन भारत संग सीमा विवाद हल करना ही नहीं चाहता है। चीन के विस्तारवाद का यह अहम तरीका रहा है कि पड़ोसी के साथ सीमा पर विवाद खड़ा कर पड़ोसी मुल्क की जमीन हड़प ले। शिनझियांग, मकाऊ, तिब्बत आदि ऐसे क्षेत्र हैं, जिसे चीन ने हड़पा। भारत का अक्सर चिन अभी भी चीन के अवैध कब्जे में है। वर्ष 2020 की गलवान घटना के बाद से भारत व चीन के बीच रिश्ते तलख हैं। भारत की कोशिश है कि एलएसी पर शांति बनी रहे, चीन कोई उपद्रव न करे। चीन बार-बार सीमा पर भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा पेश करके भारत को उकसाता रहता है। गलवान की घटना के बाद सीमा पर विवाद हल करने के लिए भारत व चीन के बीच कमांडर स्तर की 17 बार वार्ता हो चुकी है, नतीजा कुछ नहीं है। इसलिए कजाखिस्तान की राजधानी अस्ताना में जब शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेने पहुंचे तो सम्मेलन से इतर उनकी चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बात हुई, जिसमें सीमा को लेकर जारी गतिरोध को दूर करने पर सहमति बनी। इस बैठक में भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के शेष मुद्दों के जल्द निपटारे के लिए दोगुने प्रयास करने तथा संबंधों में 'स्थायित्व लाने एवं पुनः गति प्रदान' करने का प्रण लिया। इसको सकारात्मक रूप में लिया जाना चाहिए, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, जब चीन ने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रण लिया हो। पूर्व में पीएम नरेन्द्र मोदी व राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई वार्ताओं में, चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्राओं के दौरान, ल्बाल मंचों पर आपसी बातचीतों में, अनेक बार चीन सीमा पर जारी गतिरोध को हल करने का भरोसा दे चुका है, इसके बावजूद चीन ने डोकलाम, गलवान, अरुणाचल सीमा पर झड़प जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। भारत के साथ हुए पंचशील समझौते को तोड़ने वाले चीन ने कभी भी अपनी हरकतों से भारत के मन में भरोसा पैदा नहीं किया है। अब भारत संग दिए वचनों पर खरा उतरना अब चीन की जिम्मेदारी है।



रिपोर्ट

डॉ. जयतीलाल भंडारी

यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रवासियों के द्वारा वर्ष 2023-24 में भेजा गया धन दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। पिछले वर्ष में यह रिपोर्टें 107 अरब डॉलर यानी 8.95 लाख करोड़ रुपये की ऊंचाई पर है। खास बात यह है कि पिछले वर्ष में भारतीयों द्वारा भेजी गई यह रकम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से लगभग दो गुना है। यह लगातार दूसरा साल है, जब भारतीयों ने 100 अरब डॉलर से ज्यादा की धनराशि भारत भेजी है। 2022-23 में भारतीय प्रवासियों ने 111 अरब डॉलर का रिमिटेंस भारत भेजा था। ज्ञातव्य है कि भारत के बाद मेक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस सबसे ज्यादा रिमिटेंस प्राप्त करने वाले देश हैं। यह भी कोई छोटी बात नहीं है कि पिछले एक दशक में भारत में लगातार अन्य देशों के मुकाबले रिमिटेंस सबसे अधिक रहा है। भारत में वर्ष 2010 में रिमिटेंस के तौर पर 53.48 अरब डॉलर आए थे। वहीं ये वर्ष 2015 में बढ़कर 68.19 अरब डॉलर और वर्ष 2020 में 83.15 अरब डॉलर हो गए हैं। प्रवासी भारतीयों की ओर से भारत भेजा गया धन वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब डॉलर था। प्रवासियों का यह धन जहां प्रवासियों के परिवारों को मुस्कुराहट दे रहा है, वहीं अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभप्रद है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जब कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3 फीसदी की ऋणात्मक विकास दर की स्थिति में पहुंच गई थी और बड़ी संख्या में उद्योग-कारोबार बंद होने के कारण देश में आर्थिक-सामाजिक परेशानियां बढ़ गई थी, उस समय आर्थिक मुश्किलों के बीच भारतीय प्रवासियों के द्वारा भेजी गई बड़ी धनराशि से अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला था। गौरतलब है कि दुनिया में प्रवासी भारतीयों की संख्या करीब 1 करोड़ 80 लाख है। दुनियाभर में सबसे ज्यादा प्रवासी भारत के हैं। सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब में रहते हैं। पहले जहां भारत से अकुशल श्रमिक कम आय वाले खाड़ी देशों में जाते थे, वहीं अब विदेश जाने वाले भारतीयों में हाई स्किल्ड लोगों की संख्या ज्यादा है जो अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे उच्च आय वाले देशों में जा रहे हैं। ऐसे में वे अधिक कमाई करके अधिक धन भारत भेज रहे हैं। निःसंदेह प्रवासी भारतीय भारत की राजनीतिक, आर्थिक और कारोबारी शक्ति बढ़ाने में भी अहम सहयोग कर रहे हैं। दुनिया के कोने-कोने में

अर्थव्यवस्था को मजबूती देते प्रवासी

हाल ही में 27 जून को यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रवासियों के द्वारा वर्ष 2023-24 में भेजा गया रिमिटेंस (प्रवासियों के द्वारा अपने घर भेजा गया धन) दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। पिछले वर्ष में यह रिपोर्टें 107 अरब डॉलर यानी 8.95 लाख करोड़ रुपये की ऊंचाई पर है। खास बात यह है कि पिछले वर्ष में भारतीयों द्वारा भेजी गई यह रकम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से लगभग दो गुना है। यह लगातार दूसरा साल है, जब भारतीयों ने 100 अरब डॉलर से ज्यादा की धनराशि भारत भेजी है। 2022-23 में भारतीय प्रवासियों ने 111 अरब डॉलर का रिमिटेंस भारत भेजा था। ज्ञातव्य है कि भारत के बाद मेक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस सबसे ज्यादा रिमिटेंस प्राप्त करने वाले देश हैं। यह भी कोई छोटी बात नहीं है कि पिछले एक दशक में भारत में लगातार अन्य देशों के मुकाबले रिमिटेंस सबसे अधिक रहा है। भारत में वर्ष 2010 में रिमिटेंस के तौर पर 53.48 अरब डॉलर आए थे। वहीं ये वर्ष 2015 में बढ़कर 68.19 अरब डॉलर और वर्ष 2020 में 83.15 अरब डॉलर हो गए हैं। प्रवासी भारतीयों की ओर से भारत भेजा गया धन वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब डॉलर था। प्रवासियों का यह धन जहां प्रवासियों के परिवारों को मुस्कुराहट दे रहा है, वहीं अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभप्रद है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जब कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3 फीसदी की ऋणात्मक विकास दर की स्थिति में पहुंच गई थी और बड़ी संख्या में उद्योग-कारोबार बंद होने के कारण देश में आर्थिक-सामाजिक परेशानियां बढ़ गई थी, उस समय आर्थिक मुश्किलों के बीच भारतीय प्रवासियों के द्वारा भेजी गई बड़ी धनराशि से अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला था। गौरतलब है कि दुनिया में प्रवासी भारतीयों की संख्या करीब 1 करोड़ 80 लाख है। दुनियाभर में सबसे ज्यादा प्रवासी भारत के हैं। सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब में रहते हैं। पहले जहां भारत से अकुशल श्रमिक कम आय वाले खाड़ी देशों में जाते थे, वहीं अब विदेश जाने वाले भारतीयों में हाई स्किल्ड लोगों की संख्या ज्यादा है जो अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे उच्च आय वाले देशों में जा रहे हैं। ऐसे में वे अधिक कमाई करके अधिक धन भारत भेज रहे हैं। निःसंदेह प्रवासी भारतीय भारत की राजनीतिक, आर्थिक और कारोबारी शक्ति बढ़ाने में भी अहम सहयोग कर रहे हैं। दुनिया के कोने-कोने में

भारतवंशी और प्रवासी भारतीयों की राजनीतिक, आर्थिक और कारोबारी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती ऊंचाइयों भारत के तेज विकास के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो गई है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराइडकर, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनिया कोस्टा, अमेरिका की पहली महिला और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ



और राष्ट्रपति पृथ्वीराजसिंह रूपुन, सूरीनाम के राष्ट्रपति, चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ-साथ दुनिया के अनेक देशों में कई और भारतवंशी राजनेता अपने देशों को आगे बढ़ाते हुए विश्व के समक्ष भारत के चमकते हुए चेहरे हैं। इतना ही नहीं के विभिन्न देशों में राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचने के साथ-साथ भारतवंशी व प्रवासी भारतीय वैश्विक आर्थिक व वित्तीय संस्थानों आईटी, कम्प्यूटर, मैनेजमेंट, बैंकिंग, वित्त आदि के क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई, नोवार्टिस के वसंत नरसिम्हन, एडोब के शतनु नारायण, आईबीएम के अरविंद कृष्णा, स्टारबक्स के लक्ष्मण नरसिम्हन, वर्टैक्स फार्मास्यूटिकल्स के रेशमा केवलरमानी, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के संजय मेहरोत्रा, कैडेंस डिजाइन सिस्टम के अनिरुद्ध देवगन, पालो अल्टो नेटवर्क के निकेश अरोड़ा, वीएमवैयर के रंगराजन रघुराम, इमर्सन इलेक्ट्रिक कंपनी के सुरेंद्रलाल करसनभाई, माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी के गणेश मूर्ति आदि अपनी प्रतिभा, कौशल से कारोबार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया की अगुवाई कर रहे हैं और भारत के विकास के सहभागी भी बन रहे हैं। इस समय 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की एनडीए गठबंधन सरकार बनने के बाद प्रवासियों का कहना है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी नई सरकार से प्रवासियों को भारत के विकास में सहयोग और सहभागिता करने के मद्देनजर नई

ऊर्जा प्राप्त होगी। अमेरिका में कार्यरत भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक फंडराइजर तथा भारत हितैषी प्रवासियों के विभिन्न संगठनों का कहना है कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक मंचों पर जिस तरह भारत की सफलताओं का परचम फहराया है, उससे प्रवासियों के द्वारा वह अनुभव किया जा रहा है। उनका मानना है कि पिछले 10 वर्षों में भारत की सुरक्षा में सुधार हुआ है। सरकार ने आतंकवादी खतरों या आतंकवादी घटनाओं को निर्यात कर दिया है। सरकार की नीतियां भारत को आगे बढ़ा रही हैं। पिछले वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 को अभूतपूर्व सफलता दिलाते में प्रवासी भारतीयों की भी अहम भूमिका रही है। प्रवासियों का यह भी कहना है कि नई गठबंधन सरकार से दुनिया के कोने-कोने से भारतीय प्रवासियों को और अधिक सहयोग प्राप्त होगा। ज्ञातव्य है कि जहां वर्ष 2023 में इजराइल और हमस आतंकियों के बीच चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए भारत ने 'ऑपरेशन अजय' चलाया है। साथ ही वर्ष 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में भारतीय समुदाय सीधे खतरे में आ गया था। तब ऑपरेशन गंगा के तहत बड़ी संख्या में भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया था। इस वर्ष जून 2024 में कुवैत में अगिनकांड में 45 प्रवासी भारतीयों की मौत के बाद कुवैत में प्रवासी भारतीयों की सहायता के मद्देनजर नई गठबंधन सरकार ने अहम भूमिका निभाई है। भारत सरकार नहीं और अधिक सक्रियता जरूरी है। हम उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में एनडीए गठबंधन की नई सरकार के द्वारा प्रवासियों के साथ सहभागिता के नए अध्याय लिखे जा सकेंगे। हम उम्मीद करें कि दुनिया के कोने-कोने के देशों में प्रवासी भारतीय, राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्रों में अपना प्रभावी योगदान देते हुए वैश्विक मंच पर भी भारत के हितों की जोरदार हिमायत के साथ भारत के सहयोगी और सहभागी की प्रभावी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। हम उम्मीद करें कि प्रवासी भारतीय अपने ज्ञान व कौशल की शक्ति से भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने, वर्ष 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ाने में और अधिक सक्रिय सहयोग देते हुए दिखाई देंगे।

सारा संसार



भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला पर स्थित केदारनाथ मंदिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित और चमत्कारी हिंदू मंदिरों में से एक है। अगलाबत शिव को समर्पित यह मंदिर 3.583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जहाँ तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को पैदल या घोड़े से यात्रा करके पहुंचना होता है।

हाथरस हादसा

डॉ. मोनिका शर्मा



अंध श्रद्धा से बचें महिलाएं

हाथरस भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत 122 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस पीड़ादायी हादसे में कई परिवार उजाड़ गए। भारी भीड़, भीषण गर्मी, अव्यवस्था और पंडाल से बाहर आने के लिए संकरा सा रास्ता। उसी मार्ग पर एक गहरा गड्ढा भी था। इस गड्ढे में कुछ लोग गिरे तो भगदड़ मच गई। जन सैलाब की धक्का मुक्की और दरदली मिट्टी में महिला, पुरुष और बच्चे गिरते रहे। लोग एक-दूसरे को रांदकर निकलते रहे। दरअसल, यह घटना अव्यवस्था ही नहीं अंधश्रद्धा के भाव पर भी कई प्रश्न उठाती है। आस्था और धर्म के नाम पर उमड़ने वाली इस भीड़ में खियां बड़ी संख्या में शामिल होती हैं। आयोजनों का हिस्सा बनाने वाली महिलाओं के साथ बच्चे भी आते हैं। देखने में यह भी आ रहा है कि अब आयु वर्ग से परे खियां इन सस्ते कार्यक्रमों में देखी जाती हैं। अंध श्रद्धा से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो में किशोरियां, युवतियां और कम उम्र की महिलाएं अपने बच्चों-बड़ों को खाने एक बाद बिलखती दिख रही हैं। उम्र का यह पड़ाव और सत्संग के नाम पर तार्किक सोच का गुम होना समग्र समाज के लिए चिंतनीय है, क्योंकि मायावी बाबाओं की अंधभक्ति के फेर में केवल ग्रामीण और अशिक्षित महिलाएं ही नहीं फंसी हैं। हाल के बरसों में तो महानगरों में भी ऐसे बाबाओं को समर्थित विशाल आयोजन किए जाने लगे हैं। कई मामलों में आस्था के नाम भीड़ जुटाने वाले इन कार्यक्रमों और बाबाओं के चमत्कारों की हकीकत उजागर होने बावजूद महिलाओं की भीड़ जुट ही जाती है। सच तो यह है कि अंध भक्ति के फेर में फंसी महिलाएं अनगिनत समस्याओं से जूझ रही होती हैं। स्त्रियों के अनिश्चितता लिए जीवन को चमत्कारिक रूप से बेहतर बना देने वाली बातें ही उन्हें इन आयोजनों की ओर खींचती हैं। अधिकतर आयोजनों में भावनात्मक मोर्चे पर उनकी आस्था का दोहन ही होता है। ऐसे भी वाक्ये हुए हैं जब महिलाएं बाबाओं के झंसे में आकर शोषण का शिकार बन चुकी हैं। समय-समय पर बाबाओं के ज्ञान से जुड़ी भ्रांतियां तोड़ने वाली कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके गांवों से महानगरों तक खियां इस जाल से बाहर आना ही नहीं चाहतीं। उल्टे इन बाबाओं को पूजनीय बनाने वाले लोगों में अधिकतर महिलाएं ही होती हैं। अध्यात्म के नाम पर संचालित बाबाओं की गतिविधियों का व्यावसायिक विस्तार भी चिंता का विषय बन गया है। प्रायोजित टीवी कार्यक्रमों से लेकर सोशल मीडिया मंचों तक उपस्थिति रखने वाले बाबाओं के आडम्बरों की चकाचौंध को समझना और उस पर सवाल उठाना लाजिमी हो चला है। अंध समर्थन को यह सोच सामाजिक-पारिवारिक स्तर पर भी विचारणीय है। परिजनों को भी समझना होगा कि क्यों महिलाएं इस भटकाव का शिकार हो रही हैं? उनके अपनों को सहजता, आपसी समझ और संवेदनाओं से भरा परिवेश बनाना होगा।

कर्तव्य और अधिकार एक सिक्के के दो पहलू

सामान्य तौर पर हम अधिकार एवं कर्तव्य की बात करते हैं। जबकि वास्तव में होना चाहिए कर्तव्य और अधिकार। व्यक्ति को पहले अपना कर्तव्य करना चाहिए। फिर अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। यह विडंबना है कि संविधान में भी कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया। जब कर्तव्य और अधिकार एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो हम हमेशा अधिकार पर ही क्यों रुक जाते हैं? कर्तव्य हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी का अहसास कराते हैं तो अधिकार हमारे जागरूक होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यदि हम जागरूक हैं तो फिर जिम्मेदार क्यों नहीं? अगर परिवार, समाज और देश में समृद्धि और शांति लाना चाहते हैं तो हर नागरिक को पहले अपने कर्तव्य पर ध्यान देना होगा। केवल अधिकारों की बात कर उसकी आड़ में हम अपने कर्तव्यों को अनदेखा न करें। हम ईमानदारी से कर्तव्य करते रहेंगे तो अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि वह कर्तव्यों में ही निहित है। कर्ण की कर्तव्य के प्रति निष्ठा सर्वोच्च है। गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन ही नहीं, बल्कि मनुष्य मात्र को यह उपदेश दिया है कि 'कर्म करो और फल की इच्छा मत करो।' जब इच्छित फल की हमें प्राप्ति नहीं होती है तो हमें दुःख होता है। अतः सुखी रहना है तो सिर्फ कर्म करें और वह भी निष्काम भाव से। कर्तव्यों में कर्म है और कर्म करना ही मनुष्य की पहचान है। यही कर्म पुण्य के माध्यम से हमें स्वर्ग के द्वार तक पहुंचाते हैं।

अंतर्मन



करंट अफेयर

यूक्रेन में प्रतिरोध व उम्मीद का प्रतीक बन गए फूल

रूस के आक्रमण के कारण दो साल से अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए तरस रहे ओलेक्जेंडर ट्रायफोनोव जब उनसे मिलने की वरत रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे तो उन्होंने उनके लिए दो लाल गुलाब खरीदे। उनकी पत्नी और बेटी दो साल बाद पोलैंड से यूक्रेन लौट रही थीं। 45 वर्षीय चालक ट्रायफोनोव ने कहा, 'मैंने दो साल से उन्हें नहीं देखा है। फूल महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।' फूलों को हमेशा यूक्रेन की संस्कृति से जोड़ा जाता है और रूस के 2022 में आक्रमण करने के बाद से उनका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। उन्हें प्रतिरोध और उम्मीद दोनों का प्रतीक माना जाता है।

कमी भी अपने धन और पद का घमंड न करें

देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव के पास बहुत धन-संपत्ति थी। कुबेर को अपनी धन-दौलत पर घमंड हो गया। एक दिन कुबेर घमंड के साथ ही शिव जी के पास पहुंच गए और शिव जी से कहा कि मैं आपको अपने महल में खाने के लिए आमंत्रण देने आया हूँ। शिव जी ने सोचा कि कुबेर देव का घमंड दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन आप गणेश को ले जाइए और ध्यान रखना गणेश खाने में जल्दी तुल्य नहीं होते हैं। कुबेर देव को अहंकार तो था ही, उन्होंने कह दिया कि मैं तो सभी को भोजन कर सकता हूँ तो गणेश जी को भी तुल्य कर सकता हूँ। शिव जी गणेश जी को कुबेर देव के यहां भोजन करने भेज दिया। गणेश जी कुबेर देव के महल पहुंच गए। कुबेर देव ने गणेश जी के लिए बहुत सारा खाना बनवाया और गणेश जी को खाना परोसना शुरू कर दिया। गणेश जी लगातार खाते ही जा रहे थे, लेकिन उनका पेट नहीं भर रहा था। गणेश जी तुल्य हुए, लेकिन कुबेर देव के यहां का अन्न का भंडार खाली हो गया। गणेश जी को और भूख लगी थी। कुबेर देव निराश होकर तुरंत ही शिव जी के पास पहुंचे और पूरी बात बता दी। कुल ही देर में गणेश जी भी शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी ने देवी पार्वती से गणेश जी के खाने के लिए कुछ लाने को कहा। पार्वती जी तुरंत ही खाना ले आईं। देवी पार्वती के हाथ का बना खाना खाकर गणेश जी शांत हो गए। ये देखकर कुबेर देव को अपनी गलती समझ आ गई। कुबेर ने शिव जी से क्षमा मांगी और घमंड न करने का संकल्प लिया।

टेंड

विपक्ष का रवैया चिंताजनक

संदेहखाली जैसी शर्मनाक घटना पर कांग्रेस, गुणवत्ता कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं को कोई पीड़ा नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर विपक्ष पार्टियों का यह सिलेक्टिव रवैया बहुत चिंताजनक है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

गाजा अस्पताल पूरा खाली

यूरोपीय गाजा अस्पताल पूरी तरह से खाली हो गया है। अस्पताल के पास स्थान युक्ति में निकासी आदेशों के बाद, सभी 320 मरीजों और सभी चिकित्सा कर्मियों को हटा दिया है। अस्पताल से चिकित्सा उपकरणों से भरे तीन ट्रकों को भी ले जाया गया है।

-डॉ. डेविस, डब्ल्यूएचओ महानिदेशक

विवेकानन्द गौरवशाली साधु

स्वामी विवेकानन्द एक गौरवशाली हिंदू साधु थे, जिन्होंने औपनिवेशिक हिंसा और आक्रमक विधानों के नाम पर न केवल दुनिया में योग लाया, जिसका मुख्य लक्ष्य भारत था। आज उनकी प्रेरणा की जरूरत है क्योंकि वेही उड़ानी ताकत नही चाहती कि भारत का उदयान हो।

-डॉ. डेविस, अमेरिकी हिंदू लेखक

जनता ने संविधान को बचाया

भारत की जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचा लिया है। देश की नींव आसदी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 'इंडिया' के साथ खड़ी हो गयी। जनतंत्र के सभी साथियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई।

-राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष



संक्षेप

सद्विध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवती का शव

अमन लेखनी समाचार पुरवा, उन्नाव। कोतवाली क्षेत्र में बीती रात घर में अकेली रह रही 20 वर्षीय युवती ने सद्विध रूप से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली घटना की जानकारी पर पहुंचे परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोचरी भेजा कोतवाली क्षेत्र के गांव रामा अमरापुर में लल्लू की बेटी संजु देवी घर में अकेली रहती थी बीती रात घर के अंदर कमरे में दुपट्टे से फांसी लगाकर उसने आत्म हत्या कर लिया सुबह जानकारी होने पर पड़ोसियों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी जिस पर पुलिस ने शव का पंचायत नामा भर के पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया मृतक की बड़ी बहन मंजू ने बताया कि बहन किसी युवक से बातचीत करती थी। पुलिस ने शव को उतारा और उसके हाथ पर एक मोबाइल नंबर लिखा था पुलिस जांच पड़ताल कर रही है साल 2011 में पिता लल्लू ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी जिसमें वह जेल चला गया था जिसके बाद वह 2013 में जेल की जमानत पर छूट कर आया था इसी दौरान उसकी बीमारी से मौत हो गई थी। संजु दो बहन है बड़ी बहन मंजू एक साल पहले शादी हो गई थी तब से वह घर में अकेली रह गई थी कोतवाली प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह ने बताया है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है जांच की जा रही है।

हेल्थ कैंप का किया गया आयोजन

पुरवा, उन्नाव। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के आई सीटी सी स्टाफ के द्वारा ग्राम मझिगावा सदरु में एचआईवी एड्स हेल्थ कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें गर्भवती महिलाएं और नार्मल लाभार्थियों की स्क्रीनिंग की गई जिसमें आईसीटीसी सीएचसी पुरवा से महेशा कुमार और एएनएम कविता देवी और आंगवट्टा कार्यकर्ता और आशा ह्यूमना टी0आई0 से प्रोग्राम मैनेजर स्वता सिंह आदि मौजूद रही जिसमें मरीजों की एचबी, शुगर, एचआईवी, बीपी आदि की जांच की गई इस कैम्प में लगभग 40 लाभार्थियों में अपनी जांच कराई।

पीआरवी सिपाही ने युवक को मारा थप्पड़

अमेठी जिला, अमेठी में खाकी की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार पुलिसकर्मी लोगों के साथ अभद्रता कर रहे हैं। जिस पर कार्यवाही भी हो रही है, बावजूद इसके पुलिसकर्मी अपने रवैये में बदलाव नहीं ला रहे हैं। सुबह जमीनी विवाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर मौजूद एक युवक को थपड़ जड़ दिया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एसपी ने तत्काल आरोपी सिपाही को पीआरवी से हटकर ऑफिस में तैनात कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला मुंशीगंज थाना क्षेत्र के दरपौर ग्राम सभा के लठपुर गांव का है। जहां आज सुबह गांव के रहने वाले सूरज वर्मा का पड़ोस के रहने वाले युवक से जमीनी विवाद में नोकझोंक हो गई।

अमरोहा में दो बाइकों की भिड़ंत

एक युवक की मौके पर मौत, तीन युवक घायल, हालत नाजुक अमन लेखनी समाचार

अमरोहा, अमरोहा के नौगांवा सादात में पिलाकुंड के पास बीती गुरुवार की रात दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों पर सवार चारों युवक हवा में उड़ गए और सड़क पर जा गिरे। फिलहाल घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जहां से तीनों को नाजुक हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। उधर मृतक युवक का परिजनों ने बिना कानूनी कार्रवाई के ही शव को सुपुर्द ए खाक कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। दरअसल गुरुवार की रात यह हादसा नौगांवा सादात थाना

वृक्षारोपण से आती है मानव जीवन में खुशहाली: अभिषेक सिंह

वन क्षेत्राधिकारी व अधिशासी अधिकारी ने किया पौधारोपण

अमन लेखनी समाचार

कैसरगंज, बहराइच। पौधारोपण अभियान से जहां पर्यावरण संरक्षित हो रहा है। वहीं लोगों के चेहरे पर खुशहाली आ रही है। स्वस्थ पर्यावरण के बीच ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इस लिए हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। यह बातें वन क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह ने नगर पंचायत कार्यालय परिसर कैसरगंज में पौधारोपण करते हुए कही। श्री सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण ही बेहतर विकल्प है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में



पौधारोपण अमृत के समान है। पीपल, बरगद, नीम, बेल आदि ऐसे पौधे हैं जो सबसे ज्यादा आक्सीजन देते हैं व लोगों को प्रदूषण से बचाव करते हैं, हरियाली बढ़ाते हैं। वहीं लोगों को गमी में छाया भी प्रदान करते हैं। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से कम से कम

बिजली ट्रांसफार्मर जलने से अंधेरे में हजारों आशियाने

अमन लेखनी समाचार

कैसरगंज, बहराइच। विकासखंड कैसरगंज अंतर्गत ग्राम कुंडोनी में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के कारण हफ्तों से फूका ट्रांसफर नहीं बदला गया। सिर्फ खानापूर्ति के लिए फूका ट्रांसफार्मर ही लाकर मौके पर लगाया गया, जिसको सप्लाई शुरू होते ही वह अपने आप बंकरा हो गया। ज्ञात हो एक सप्ताह पूर्व से लगभग तीन हजार की आबादी अंधकार में डूबी पड़ी हुई है। जिस पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की तथा लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों को दी लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के कारण विद्युत व्यवस्था अपनी पटरी पर नहीं आई। बिजली विभाग के आला अधिकारी अपनी ही मौजूदगी में ऑफिस में पैर जमाए हुए देखे जा रहे हैं। इस ग्राम



मांग की है। ज्ञात हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेशों के बावजूद भी कैसरगंज की विद्युत व्यवस्था अपनी पटरी पर नहीं आ रही है।

अयोध्या में 10 कुंतल फूलों से सजा दशरथ महल

संगीतज्ञों ने भजनों की दी प्रस्तुति, कई संत और आचार्य रहे मौजूद

अमन लेखनी समाचार

अयोध्या, अयोध्या के सिद्ध पीठ राजा दशरथ महल सज कर तैयार हो गया है। कई एकड़ में फैले मंदिर परिसर में मुख्य गेट से लेकर गर्भगृह तक करीब 10 कुंतल फूल लगाए गए हैं। विंदु भाव धारा आचार्य पीठ के महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य की प्रेरणा से पूल बंगला में भगवान रूप से सजाया गया। सोने के अनेक रत्नों से जड़े आभूषण से रामलला के चारो भाइयों का श्रृंगार हुआ है। यह मन मोहक सिलसिला देर रात तक चलता रहा। फूल बंगले में कई



गीतों का गायन हुआ। मधुकरि संत मिथिला बिहारी दास, राघवेंद्र शरण, ओंकार दास, विष्णु प्रसाद नायक, विनोद शरण ने अपनी प्रस्तुतियां दी। संतों-श्रद्धालुओं और संगीतज्ञों का आभार जताते हुए विंदुभावाचार्य महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य ने कहा, संगीत और काव्य भक्तों की वह भाषा है। जिससे भगवान भी प्रसन्न हो उठते हैं। सच्चा

विशाल तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर की बैठक

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। नर सेवा - नारायण सेवा के द्वारा गत कई वर्षों से 14 अगस्त को निकाली जाने वाली विशाल तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर बुलाई बैठक आज सिविल लाइन स्थित संस्था के कार्यालय में संपन्न हुयी नर सेवा नारायण सेवा समिति के संस्थापक / अध्यक्ष विमल द्विवेदी के आवाहन पर आगामी 14 अगस्त को निकाली जाने वाली विशाल तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों व सदस्यों की बैठक बुलाई गयी जिसमें यात्रा को भव्यता व दिव्यता प्रदान करने हेतु महा जनसमर्पक अभियान पर जोर दिया गया व यात्रा संचालन समिति के गठन पर हुयी चर्चा यात्रा में अधिक से अधिक राष्ट्र भक्तों की सहभागिता हो इसके लिए आस पास के गांवों व बस्तियों में संपर्क कर उन्हें आमंत्रित करने व यात्रा में शामिल होने का आग्रह करने की अपील की साथ ही होल्डिंग्स, बैनर सहित सोसल मिडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किये जाने व यात्रा

सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट में कांग्रेसियों का प्रदर्शन

राहुल का पुतला फूंकने पर जताई नाराजगी, कहा- सरकार के इशारे पर भाजपा ने फैलाया राजनीतिक विद्वेष अमन लेखनी समाचार

सुल्तानपुर, सुल्तानपुर में राहुल गांधी का पुतला भाजपाईयों द्वारा फूंकने से कांग्रेसी नाराज हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने जिला कांग्रेस कमटी कार्यालय से निकल कर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चलने वाला देश है। सविधान के अनुसार हर व्यक्ति

उप जिलाधिकारी ने किया बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा, ग्रामीणों से किया संवाद



अमन लेखनी समाचार

कैसरगंज, बहराइच। तहसील कैसरगंज के अंतर्गत ग्राम गुड्डिया नंबर वन का उप जिलाधिकारी कैसरगंज पंकज दीक्षित ने दौरा किया और बाढ़ ग्रस्त के लोगों के साथ संवाद भी स्थापित किया। उपजिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ ग्रस्त के लोगों को किसी भी सूरत में कोई दुखारी नहीं होने दी जाएगी। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में

हसनपुर में संभल मार्ग पर दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत

हादसे में दंपति सहित तीन लोग घायल, हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर



अमन लेखनी समाचार

हसनपुर, अमरोहा के हसनपुर के गांव काला खेड़ा के नजदीक दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दंपति सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए गांव के निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया गया। जहां हालत गंभीर होने पर तीनों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव कालाखेड़ा के संभल मार्ग का है। सुबह दो कारों की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भयंकर थी की दोनों कार बुरी तरह

साहब.. यह नेपालगंज रोड 927 एचएन हाईवे मार्ग है, तालाब नहीं



अमन लेखनी समाचार

रूपईडीहा, बहराइच। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र नगर पंचायत रूपईडीहा पानी भरने से सड़क तालाब बन गई है। जिसके चलते 927 एचएन हाईवे रोड स्थित लैंड कस्टम से एसबीआई बैंक तक बरसात से जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि सड़क के दोनों तरफ जो नाला बनाया गया था वह सब बंद होने के

वार्ड नम्बर आठ की सभासद सुमन सिंह बनी सभासद संघ की अध्यक्ष

अमन लेखनी समाचार

कैसरगंज, बहराइच। नगर पंचायत कार्यालय कैसरगंज में सभासदों की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें कुल 16 सभासदों में 13 सभासद उपस्थित रहे। बैठक में सभासद संघ की पुरानी कार्यकारिणी को भंग किया गया और नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिसमें सभासदों की उपस्थिति में और उनकी सहमति से श्रीमती सुमन सिंह सभासद प्रतिनिधि हिमांशु सिंह को सभासद संघ का अध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए रोहित कुमार मौर्य और मोहम्मद फिरोज आकिफ को महामंत्री चुना गया। अलाउद्दीन, सोहनलाल चौरसिया, मोहम्मद सेफ और केतकी

एक पेड़ मां के नाम स्लोगन के साथ पत्रकारों एवं वन कर्मियों ने लगाए पौधे

अमन लेखनी समाचार/मौ. कौसर

रूपईडीहा, बहराइच। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में चल रहे वन महोत्सव के अंतर्गत पौधे वितरण एवं रोपण कार्यक्रम रूपईडीहा वन रेंज कार्यालय में पत्रकारों एवं वन रेंज कर्मियों ने मिलकर विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपित किए। वन रेंज अधिकारी रूपईडीहा अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि वन महोत्सव के अंतर्गत रूपईडीहा वन रेंज कार्यालय में रूपईडीहा के पत्रकारों में रूपईडीहा पत्रकार संघ के संरक्षक शेर सिंह कसौधन, संघ के अध्यक्ष संजय वर्मा, संघ के उपाध्यक्ष इरशाद हुसैन



सहित दर्जनों कर्मचारी मौजूद रहे। रूपईडीहा वन रेंज कार्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए।

नगर पंचायत रुपईडीहा की विद्युत व्यवस्था चरमराई

अमन लेखनी समाचार

रूपईडीहा, बहराइच। भारत नेपाल सीमावर्ती कस्बा नगर पंचायत रूपईडीहा और इसके चारो तरफ विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। पिछले करीब 15 दिन से 24 घंटे में सिर्फ 6 से 8 घंटे ही विद्युत आपूर्ति मिल पा रही है। लाइट आने के आधे से 1 घंटे बाद ही बिजली फिर से गुल हो जाती है और फिर 6 से 8 घंटे बाद ही विद्युत के दर्शन होते हैं। क्षेत्र की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। विभाग का कोई अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, अगर किसी का फोन उठता भी है तो इधर-उधर की

सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट में कांग्रेसियों का प्रदर्शन



को अपना विचार रखने का अधिकार है। हमारे नेता राहुल गांधी ने लोकसभा के सदन में बतौर नेता विपक्षी दल अपने विचार रखे थे। उनकी बातों को तोड़ मरोड़कर भारतीय जनता पार्टी व उनके सहयोगी संगठन ने विभिन्न स्थानों पर हमारे नेता राहुल गांधी का पुतला फूका। उनकी फोटो को हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के पैतृक आवास के बाहर

संक्षेप

खुर्जा की पाँटरी में कार्यरत मजदूर की करंट से मौत

अमन लेखनी समाचार

खुर्जा, बुलंदशहर में बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए खुर्जा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला खुर्जा देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव हजरतपुर का है। यहां के निवासी सचिन पुत्र श्यादान नगर स्थित एक पाँटरी में मजदूरी करके परिवार का गुजारा करता था। करीब 3 साल पूर्व भी सचिन की शादी हुई थी। शादी के बाद सचिन के दो छोटे बच्चे थे। खुर्जा इंस्टिट्यूट में देर शाम करंट के चलते सचिन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एचटी लाइन की चपेट में आने से सचिन की मौत हुई है। मौत की सूचना मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचित करके बुलाया। परिजनों ने सचिन की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। वही हादसे की सूचना पर पहुंची खुर्जा पुलिस से शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खुरजा सीओ वरुण कुमार ने बताया कि फिल्हाल शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। जांच पड़ताल के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नाबालिग को घर से भगा कर शादी की

अमन लेखनी समाचार

सोनभद्र, सोनभद्र के राबट्सगंज कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने उससे शादी रचाने के साथ ही, उसे बंधक बना लिया गया। चाइलड हेल्पलाइन लखनऊ से सूचना मिलने पर बाल संरक्षण इकाई की टीम ने पुलिस के साथ दबिश डालकर पीड़िता को मुक्त कराया। फिल्हाल नाबालिग को बालिका बाल गृह में आवासित कराया गया है। बता दें कि सोनभद्र के राबट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को पास के गांव के रहने वाले युवक ने बहला-फुसलाकर तीन-चार दिन पूर्व भगा लिया और शादी भी रचाली। इसके बाद उसे घर में ले जाकर बंधक बना लिया। बृहस्पतिवार को किसी ने चाइलड हेल्पलाइन लखनऊ पर फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी और बंधक बनाई गई पीड़िता को मुक्त कराने की गुहार लगाई। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने इसको गंभीरता से लेते हुए तत्काल चाइलड हेल्पलाइन यूनिट से सुपरवाइजर सुधा गिरी, सत्यम चौरसिया, धर्मवीर सिंह, केस वर्कर बजरंग सिंह की संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। टीम राबट्सगंज कोतवाली से पुलिसकर्मियों को साथ लेकर बंधक बनाए गए मकान में दबिश डाली गई। वहां से बालिका को बरामद कर विधिक अभिरक्षा में ले लिया गया। पीड़िता को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया।

वहां से उसे बालिका बाल गृह में आवासित कर काउंसिलिंग के निर्देश दिए गए। जिला बाल संरक्षण इकाई से ओआरडब्ल्यू शेषमणि दुबे ने बताया कि जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की भी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार के संचारी रोग नियंत्रण अभियान को ठेंगा दिखाते माधोपुर कररिया के सफाई कर्मचारी

कागजों में ही काम करके ले रहे वेतन

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। सहजनवां तहसील अंतर्गत विकासखंड पाली क्षेत्र स्थित के ग्राम पंचायत माधोपुर कररिया के सफाई कर्मचारी कागजों में ही काम करके ले रहे हैं वेतन एक तरफ सरकार द्वारा संचारी नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस अभियान के तहत शहर से लेकर गांव तक सभी जगह पर विशेष अभियान चलाकर साफ सफाई व्यवस्था की जाती है, जिससे बरसात के समय होने वाले तमाम जल जनित बीमारियों से लोगों को छुटकारा मिलता है। वही सहजनवा तहसील अंतर्गत ग्राम सभा माधोपुर कररिया गांव में स्वच्छता अभियान को खुद वहां के सफाई



कर्मचारी ठेंगा दिखा रहे हैं। कई महीने से सफाई कर्मचारी इस गांव को झांके तक नहीं आए हैं। एक तरफ संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है जिससे तहत साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश दिया गया है। बावजूद इस गांव में गंदगी का अम्बार लगा हुआ है। सफाईकर्मियों का वेतन भी उठा रहे हैं। वही ग्राम सभा माधोपुर कररिया के लोगों का आरोप है कि इन दोनों सफाई कर्मियों को यहां से हटाया जाए और दूसरे सफाई कर्मियों को ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि कररिया गांव में सफाई कर्मियों की रिश्तेदारी भी है। रोस्टर से भी सफाई नहीं कराई जा रही है। करीब दो हजार आबादी वाले

नहीं आ रहे हैं। और बिना काम किए वेतन भी उठा रहे हैं। वही ग्राम सभा माधोपुर कररिया के लोगों का आरोप है कि इन दोनों सफाई कर्मियों को यहां से हटाया जाए और दूसरे सफाई कर्मियों को ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि कररिया गांव में सफाई कर्मियों की रिश्तेदारी भी है। रोस्टर से भी सफाई नहीं कराई जा रही है। करीब दो हजार आबादी वाले

इस ग्राम सभा में दो सफाई कर्मियों की तैनाती है। आपको बताते चलें कि कररिया गांव के अच्छेलाल यादव ने कहा कि जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया तो संक्रमक रोग फैल सकता है। वही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा-करकट फैला रहता है नालियां बजबजा रही हैं। इस मौके पर सुधांशु श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर, अवधेश कुमार, देवान यादव, पितृ यादव सहित गांव के तमाम लोग ने साफ-सफाई के साथ दवा छिड़काव की मांग की है। उक्त संदर्भ में ब्लाक पाली के सहायक विकास अधिकारी पंचायत धर्मंदर कुमार ने कहा कि संचारी नियंत्रण अभियान चल रहा है। इसमें रोस्टर से मैं गांव की सफाई करवा दूंगा। हालांकि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत ही जब इस गांव में साफ सफाई नहीं हो रही है तो बाकी समय क्या होता होगा इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।

जहां मैं का भाव है, वहीं कलयुग विद्यमान है - आचार्य ध्रुव नारायण

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। सहजनवां तहसील अंतर्गत विकासखंड पाली क्षेत्र स्थित के नगर पंचायत घघसरा के परशुराम नगर इटार में राजा परीक्षित ने कलयुग को केवल पांच स्थान दिए थे- हिंसा, जूआ, मदिरापान व दुषित भोजन, पर स्त्री गमन तथा विना कमाए हुए धन का संचय करना शामिल है। सभी में (धर्मंड) यानि मैं के रूप में विद्यमान होता है। उक्त बातें-प अयोध्या धाम से पधार आचार्य ध्रुव नारायण शास्त्री ने कही। वह नगर पंचायत घघसरा के परशुराम नगर के इटार में श्रीमद् भागवत व्यासपीठ से श्रद्धालुओं को सातवें दिन कथा रसपान कर रहे थे। उन्होंने कथा विस्तार करते हुए कहा कि- युग के अनुसार कलयुग रूपी राक्षस का नाम भी बड़ा हुआ करता था। मूर्तिमान रूप में वह सदा संसार के सामने प्रकट होकर दुख देता था। कथा व्यास ने उदाहरण देते हुए कहा कि- सतयुग में हणाकश्यप, त्रेता में रावण, द्वापर में कंस तथा कलयुग में सभी के विचारों में मैं के रूप व्याप्त है। हमें ईश्वर का सतत भजन चिंतन करते रहना चाहिए। तभी इस कलयुग रूपी महा राक्षस से पार पा सकते हैं। उक्त अवसर पर आचार्य विश्वनाथ शास्त्री, धर्मदेव चतुर्वेदी, शक्तेश कुमार पांडेय, बटका पांडेय, पूर्व प्रधान रंगनाथ पांडेय, मौलू पांडेय, अभिनव कुमार पांडेय, बाबा आचार्य रामदेव, बड़कनू, हरिराम, बलई बाबा, धर्मदेव गौड़ समेत कई लोग मौजूद।



बुजुर्ग दंपति की विद्युत करंट से हुई मौत

अमन लेखनी समाचार

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जनपद में बरसात का पानी कच्ची छत से घर के अंदर आ रहा था। तभी बुजुर्ग दंपति पानी रोकने के लिए छत पर गए थे। पड़ोस के घर में गई विद्युत की तार से छत पर करंट उतर आया। जिससे बुजुर्ग दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थरियां थाना हसवा चौकी क्षेत्र के मोहम्मदपुर नेवादा गांव निवासी वासुदेव पासवान (60) पुत्र सुखदेव गांव में



रहकर खेती किसानी का काम करता था। रविवार की दोपहर चार बजे बारिश होने के कारण कच्ची छत से घर के अंदर पानी आ रहा था। पानी रोकने के लिए पत्नी गुजरतिया (58) के साथ छत पर गया था। तभी पड़ोसी चंद्रपाल पुत्र बहादुर

लाल के घर जा रही बिजली की तार से कच्ची छत पर करंट उतर आया। जैसे ही बुजुर्ग दंपति छत पर पहुंचे तो विद्युत का करंट लग गया। करंट लगने से बुजुर्ग दंपति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के कोई बेटा नहीं है। दो बेटियां हैं जिसकी शादी कुछ वर्ष पूर्व हो चुकी है। मौत की खबर सुनते ही बेटे सुनीता और संगीता का हाल बहाल रहा। इस पर था अन्य रणजीत बहादुर सिंह ने बताया कि विद्युत के करंट से बुजुर्ग दंपति की मौत हुई है। दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

बरामदे में सो रही किशोरी का अपहर्ता गिरफ्तार

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। हरपुर बुदहत थाना क्षेत्र के एक गांव की एक किशोरी जो 15 फरवरी को बरामदे में सो रही थी, उसे गांव के ही एक 16 वर्षीय किशोर ने बहला फुसलाकर भगा ले गया था। काफी खोजबीन करने के बाद जब किशोरी नहीं मिली तो 5 अप्रैल को किशोरी की मां ने थाने में नामजद तहरीर देकर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी कि रविवार को मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष विशाल कुमार सिंह ने हमराही सिपाहियों के साथ कुआल पुल के पास से सवा ग्यारह बजे के करीब किशोरी सहित किशोर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त को पछताछ में अपना नाम रंजीत उर्फ पथरा पुत्र राम चन्द्र निवासी अहिरौली कुड़ियां थाना हरपुर-बुदहत बताया। पुलिस ने गिरफ्तार बालअपचारी रंजीत उर्फ पथरा को न्यायालय में पेश करते हुए बाल सुधार गृह में भेज दिया।

टमाटर हुआ लाल, कैसे बनाएं सब्जी और दाल बिन बरसात जलमग्न हुई मेरठ के गांवड़ी की सड़के

पलायन करने को मजबूर ग्रामीण, लगातार जलभराव से दरकने लगी दीवारें

अमन लेखनी समाचार

मेरठ, मेरठ में मवाना के गांवड़ी गांव में बिना बारिश ही गांव जलमग्न हो रहा है। सफाई व्यवस्था सही न होने के कारण गांव में सड़कों पर तीन फीट तक पानी भर चुका है। ग्रामीण पिछले 10 दिनों से इसी बदबूदार पानी में से निकलकर जा रहे हैं। वहीं लगातार जलभराव के कारण मकानों की दीवारें भी दरकने लगी हैं। घर कमजोर हो रहे हैं। ग्रामीणों ने अफसरों को शिकायत देते हुए अपनी परेशानी के हल की गुहार की है। साथ ही चेतानी दी है अगर सात दिनों में इसका हल नहीं निकला तो वो पलायन को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने बताया कि पानी का रिसाव दीवारों में होने से कई मकान गिरने को तैयार हैं तो वहीं पानी भरने से दर्जन भर घरों में दरारें पड़ गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि एसडीएम को शिकायत पत्र सौंपने



के बाद कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी है। चेतानी दी है कि यदि एक हफ्ते में सड़क पर हो रहे जलजला एवं तालाब में पानी भर चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को स्कूल नहीं जाने से पढ़ाई भी बाधित हो गई है। मवाना ब्लाक अंतर्गत गांव गांवड़ी के लोगों ने बताया कि सड़क पर भयानक जलभराव होने से मुख्य मार्ग पर ढाई से तीन फीट पानी

बराबर चल रहा है। जलभराव जैसी स्थिति पनपने से गांव में महामारी के साथ संक्रमण फैलने से लोग बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। गांव के मुख्य मार्ग पर पिछले दो साल से गांव में स्थित तालाब पर अतिक्रमण के चलते तालाब का पानी ओवरफ्लो हो गया है जिससे गांव के मुख्य मार्ग पर जलजला जैसी स्थिति पनपी हुई है। गत दिनों हुई बारिश से तालाब के पानी की निकासी नहीं होने से पानी सड़कों पर आ गया और लोगों के घरों में घुसा है।

मुख्य मार्ग की सड़कों पर ढाई-तीन फीट पानी चलने से मकानों की दीवार में रिसाव होने पर कुछ ग्रामीणों के मकान ध्वस्त होने के कारण पर है तो वहीं कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं। सड़कों पर ढाई-तीन फीट पानी होने से सांप और बिच्छू पानी में तैरते हुए नजर आने से लोगों में दहशत का माहौल भी पनप गया है।

बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति

शारदा मंदिर से बग्घा नाला के बीच करोड़ों रुपए से बनी सड़क पर जलमग्न होने से आवागमन बाधित

अमन लेखनी समाचार



मतलब ही नहीं। सड़क निर्माण ठेकेदार व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के देखरेख में इस तरह बना की सड़क पर अगर थोड़ा भी बरसात हो जाए, तो शारदा मंदिर के पहले सड़क पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। पानी नाली में सही तरीके से नहीं जाता, जो विभाग की नाकामी को दर्शाता है। पानी भरने

की वजह से गाड़ियों के आवागमन में काफी समस्या होने लगती है। गाड़ी खरीदने से पहले प्रदेश सरकार को लोग रोक टैक्स देते हैं। उनको सड़क की सुविधा अच्छी मिले। लेकिन जमीनी हकीकत सरकार को नहीं दिख रहा है। उनके अधिकारी कमीशन का पैसा खाने में मस्त है।

सोनभद्र में सड़क

हादसे में व्यक्ति की मौत सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, चालक मौके से फरार

अमन लेखनी समाचार

ओबरा, सोनभद्र के थाना क्षेत्र के वाराणसी-शांतिनगर मुख्य मार्ग पर देर रात हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सड़क पार कर दूसरे साइड जा रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। वाहन की चपेट में आने से व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। वहीं दुर्घटना करने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस को मदद से युवक को चोपन सीएचसी पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। मृतक की पहचान राजकुमार भारती (38) के रूप में हुई। मृतक रिक्शा चलाकर परिवार का चलाता था। बेटे संदीप भारती ने पुलिस को लिखित तहरीर दी है। उप निरीक्षक उमाशंकर यादव ने बताया कि मृतक की पहचान होने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है।



बाइक सवार युवकों पर गिरा

बिजली का तार, दोनों की मौत

डेयरी पर दूध लेने जा रहे थे, 11 हजार की एचटी लाइन सिर पर गिरी

अमन लेखनी समाचार

जौनपुर, जौनपुर के सिंगरामऊ थाना क्षेत्र में बछुवार गांव के पास गुरुवार की शाम करीब साढ़े सात बजे बारिश के दौरान बाइक सवार दो युवकों पर हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बछुआर गांव निवासी 22 वर्षीय सूरज तिवारी और 23 वर्षीय श्यामसिंह यादव एक ही बाइक से सिंगरामऊ स्थित डेयरी पर दूध देने के लिए जा रहे थे। उस समय हल्की बूंदबांदी हो रही थी। वो घर से करीब 300 मीटर दूर पहुंचे ही थे कि



अचानक 11 हजार की एचटी लाइन टूटकर दोनों के सिर पर गिर गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। आनन-फानन में ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति बंद कराई और दोनों को बदलापुर सीएचसी ले गए। जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया।

परिजनों ने कहा कि तार काफी दिनों से जर्जर था। विद्युत विभाग की लापरवाही से दोनों युवकों की जान चली गई। अवर अभियंता सिंगरामऊ अनीष यादव ने बताया कि बारिश के दौरान इंसुलेटर पर आकाशीय बिजली गिरने से तार कटा और वह घटना हुई।



वाहन गाड़ी संख्या यूपी 50 एक्स 7200 से कैम्पियरगंज की तरफ भाग निकली। शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने पीछा किया। पीछा कर रहे अजय यादव ने बताया कैम्पियरगंज पहुंचने के बाद चापस पीपीगंज की तरफ मुड़ गये। सोकनी चौराहे से भागते हुए चरकहवा बैसी माता स्थान मोड़ पर गाड़ी बजाकर के भोला निषाद व अरुण कुमार के गाड़ी को टक्कर मारते भरवल चौराहा होते हुए

पीपीगंज के तरफ मुड़ गये। मुक्तिनाथ पुत्र राम मुरत चौरसिया ने बताया इन्हीं महिलाओं के द्वारा 27-6-24 को रात 2 बजे घर में घुस कर दो मोबाइल चोरी करके फरार हो गई। क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज कमलेश कुमार सिंह ने बताया पांच महिलाओं को पीपीगंज प्रभा हॉल चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी की तलाशी करने पर पांच स्मार्टफोन एक की पैड मोबाइल बरामद हुई हैं। जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

दुकान की छत ढहने से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान

लेखपाल कुलदीप ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा

अमन लेखनी समाचार/निर्मित द्विवेदी

बिंदकी, फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के थाना कल्याणपुर क्षेत्र के अंतर्गत हरसिंहपुर चौडगरा गांव में शनिवार की रात बारिश के कारण एक पक्की दुकान की छत ढह जाने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बताते चलें यह पूरा मामला हर सिंह पुर चौडगरा गांव का है जहां आशिया जनरल स्टोर एवं कॉस्मेटिक स्टोर की छत बारिश के कारण रह गई जिससे लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया। इस पर दुकान की मालकिन आशिया खानून पत्नी जमील अहमद ने हल्का लेखपाल हरसिंहपुर चौडगरा को सूचना दी की मेरी कॉस्मेटिक की दुकान की छत बारिश के कारण गिर गई है जिस पर सिलोई मशीन वा अन्य कॉस्मेटिक का सामान का नुकसान हो गया है जिस पर लेखपाल कुलदीप ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया जहां आशिया में अनुसार लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान की बात कही गई



10 जुलाई से आईजीआरएस सेल में शिकायत कंट्रोल रूम होगा स्थापित

अमेठी। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अमित गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में जनपद अमेठी में आई०जी०आर०एस० सेल कलेक्ट्रेट में संचालित किया जा रहा है जिसमें प्रत्येक दिन जनसुनवाई में आवे हूये संदर्भों को सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित कर निस्तारित कराया जाता है इसके अतिरिक्त शासन स्तर से आवे संदर्भों (मुख्यमंत्री/पी०जी०/राजस्व/मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आदि) व आवेदक से सीधे प्राप्त आनलाईन संदर्भों को भी समयांतरगत निस्तारित कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई से जनपद अमेठी में आई०जी०आर०एस० सेल में शिकायत कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। जिसके द्वारा शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता जांचने हेतु 02 दूधभाष नम्बर 9236599812 व 9511080036 जारी किये जा रहे हैं। जिनके माध्यम से शिकायतकर्ता से फोन कर फीडबैक लिया जायेगा तथा शिकायतकर्ता उपरोक्त नम्बर पर प्रातः 10 बजे से शाम 06 बजे तक फोन कर अपनी शिकायत का स्टेटस व निस्तारण भी जान सकेंगे।

पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी : डॉ प्रवीण सिंह जादौन

अमन लेखनी समाचार

कालपी, जालौन। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सहकारिता क्षेत्र के संगठन सहकार भारत उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ के निदेशक डॉ. प्रवीण सिंह जादौन ने सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ कालपी सहकारी संघ लिमिटेड, छौंक, जालौन के परिसर में बरगद, आवला एवं पीपल के पौधों का रोपण किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर डॉ. प्रवीण सिंह जादौन ने कहा, आज हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित होना होगा। पेड़-पौधे हमारी धरती के फेफड़े हैं और इन्हें बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। बरगद और पीपल जैसे पेड़ न केवल हमारी वायु को शुद्ध करते हैं, बल्कि हमें छाया, स्वच्छ हवा और पर्यावरण संतुलन भी प्रदान करते हैं। डॉ. जादौन ने कहा, हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या कुछ व्यक्तियों की जिम्मेदारी



नहीं है, बल्कि यह हम सभी का कर्तव्य है। हमें अपने आस-पास अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। इससे न केवल हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ वातावरण मिलेगा, बल्कि हमारी वर्तमान जीवन शैली में भी सुधार होगा। क्रय विक्रय सहकारी समिति लि कालपी के उप सभापति उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सभी सहकारी संस्थाओं को अपने परिसर में पौधा लगाना चाहिए इस पहल से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। हम सभी को पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान

देना चाहिए और अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। जिला केद्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार लि जालौन के अध्यक्ष उषेंद्र सिंह राजावत ने पौधों की देखभाल और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने संकल्प दिलाया इस अवसर पर स्थानीय निवासियों

शिक्षक संघों ने आनलाइन उपस्थिति के बहिष्कार का लिया निर्णय

अमन लेखनी समाचार

अमेठी। पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार के समय अपने मांग पत्र को दोहराते हुए आज से आनलाइन उपस्थिति के बहिष्कार का निर्णय लिया है। दोनों संगठनों की प्रदेश इकाईयों में ने वचुअल आपात बैठक कर यह निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पहले 15 जुलाई से डिजिटल उपस्थिति के साथ बच्चों की उपस्थिति को आनलाइन करने और एम डी एम पत्रिका को आनलाइन करने का आदेश दिया था। शनिवार को अचानक शासन की ओर से आदेश में संशोधन करते हुए 8 जुलाई से शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति का आदेश जारी कर दिया। आदेश की जानकारी होते ही पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय

कार्यकारिणी में वचुअल आपात बैठक करके शासन के आदेश के बहिष्कार का निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह और पूर्व मा शि संघ के जिला महामंत्री रमाकांत मौर्य ने बताया कि जब तक सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती , हमारी मांग पूरी नहीं होती, सभी शिक्षक आनलाइन उपस्थिति का बहिष्कार करेंगे।

प्रमुख मांगें - एक नजर

- 1- शिक्षकों के लिए अर्ध आकस्मिक अवकाश
- 2- तीन दिन विलम्ब की स्थिति में एक आकस्मिक अवकाश
- 3- अर्जित अवकाश अनुमन्य किया जाय
- 4- पुरानी पेंशन बहाली की जाय।

खरीफ की फसलें बोते ही गमार्ने लगा बेसहारा गोवंश को संरक्षित करने का मुद्दा किसानों ने सौपा झापन

अमन लेखनी समाचार



को खतरा है। किसान इनको संरक्षित करने की मांग करने लगा है। शनिवार को बदनपुर की प्रधान साधना साहू, किसान संदीप पाठक, दिनेश साहू, जयपाल साहू, रामपाल साहू, चंद्रभान आदि ने खंड विकास अधिकारी को संबोधित ज्ञापन एडीओ पंचायत को सौंपकर बेसहारा गोवंश संरक्षित करने की मांग की है। बता दें कि अस्थायी

सपने होने जा रहे साकार, पांच जिलों के 115 गांवों से गुजरेगी ट्रेन

अमन लेखनी समाचार

115 गांवों की जमीन रेललाइन बिछाने के लिए अधिग्रहीत की जाएगी। अधिग्रहण अधिसूचना जारी होने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यह जानकारी आरटीआइ कार्यकर्ता डॉ. राकेश सिंह द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उत्तर रेलवे में निर्माण विभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के जनसूचना अधिकारी अजीत सिंह ने दी।

यहां बिछेगी रेललाइन

जौनपुर- शाहगंज, अरघपुर खुर्द, खुर्दु खास, जंचीपुर, बुमखा, फखनपुर, रिबिका, पटनइया, भतौली, सारी जहांगीरपट्टी।

सुल्तानपुर- मैरी, पूरमासिंह, नोनरा, रहमानपुर, गोपालपुर, कुंभी, सिमहिया, चतुरपुर, कादीपुर, विमलपुर, गानापुर, मुरारपट्टी, धंदा, सातनपुर, भैरोपुर, हंसापुर, सुल्तानपुर कलां, मोतिगपुर,

संभारपुर, अकरीपुर, हमजाबाद, नैपुरिया, जुआलीपुर, इसहाकपुर, तियरी मछरौली, लुल्तानपुर, दिखौली, पांडेय पुरवा, लौहर पश्चिम, लौहर दक्षिण, बिसेन का पुरवा, दयाल का पुरवा।

अमेठी- सतरा, गंगा का पुरवा, बसावनपुर, घोरा, गोसाई का पुरवा, संडीला, पिंडोरिया, पूरे कुर्मी, बनवापुर, लोकापुरमल, जमाल पट्टी, तिवारीपुर, अमेठी, पंडितपुर, श्रीरामपुर, सुंदरपुर, पूरेशिलाल, लालशाहपुर, बासुपुर, पंडरे, पूरे लोनीया, पूरे शुक्ल, पटानपुर, धंदाई, पूरे चौहान।

प्रतापगढ़- कुंभीडीहा, पूरे गिरिजा सिंह, पूरे गड़रिया, पूरे ओझा, उपाध्यायपुर, उदयपुर, अठेहा, सलभानपुर, देवता का पुरवा, पूरे बड़वान, शामगढ़, पूरा मनौती, पूरे सरदारसिंह, भोला का पुरवा।

रायबरेली- दोस्तपुर बुधवार, बीरपुर, पूरेकलंदर, नियावां, पूरे धानी,

साहिबजादा, परशदेपुर, पिरानगढ़, बरौलिया, अब्दुल्ला, अवनानिस, अवना सदरा, सलोने, लालपुर, जहांपुर, मोहम्मदाबाद, रूमीपुर, पूरे धीरागोपाल, बछियापुर, समसपुर, कमालपुर, डाकपुर, सराय सहियान, बिकाय सराय परसू, पूरे पांडेय, खालिसपुर खुर्द, मलकाना, गोरियापुर, मुस्तफाबाद (ऊंचाहार)।

बिजेथुआ महावीरन हो स्टेशन

सुल्तानपुर : गुजरात श्रम कल्याण बोर्ड के पूर्व सदस्य चंद्रभान के मिश्र ने ऊंचाहार- शाहगंज रेलपरियोजना में बिजेथुआ महावीरन में स्टेशन बनाने की मांग की है। उन्होंने सुल्तानपुर-रागंज के बीच अहिमाने रेलवे स्टेशन बनाए जाने के लिए भाजपा के नौ सांसदों के माध्यम से रेलमंत्री को पत्र भेजा है। हालांकि अहिमाने गांव की सीमा से सटे बैजापुर में हाट स्टेशन बनाने की स्वीकृति रेल महकमा दो साल पहले ही दे चुका है।

सांसद के प्रथम नगर आगमन पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के आवास पर स्वागत

वृक्ष मानव जीवन का अभिन्न अंग - नंदकिशोर शिवहरे
मनमर्जी नहीं चलेगी जन मर्जी चलेगी- अनार सिंह यादव

अमन लेखनी समाचार

हमीरपुर। भरुआ सुमेरपुर कस्बे में सपा सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत के प्रथम नगर आगमन पर सपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नंदकिशोर शिवहरे के आवास पर एकत्रित हुए जहां पर पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सांसद का माल्यापण कर भव्य स्वागत कियो इसके पश्चात नगर में भ्रमण कर पीडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं से मुलाकत की सांसद ने कहा कि कोई भी हमारा कार्यकर्ता सतया नहीं जाएगा हम कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़े रहें इसके पश्चात हुए चंद्र पूर्व बुजुर्ग पहुंचे जहां पर उन्होंने वृक्षारोपण किया गया समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष एवं फायर ब्रांड नेता अनार सिंह यादव महलरा ने कहा कि



वृक्ष मानव जीवन का अभिन्न अंग है इसके पश्चात उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जन सेवा के लिए किया गया संघर्ष सदैव फलीभूत होता है जिस तरीके से 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन ने तानाशाही अहंकार, भाजपा सरकार को अर्श से फर्श पर लाने का काम किया है निश्चित ही आने वाले 2027 के चुनाव के लिए अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी एक नए इतिहास की तरफ तेजी से

सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय परिसर में जमा होता है नाली का गंदा पानी, जिम्मेदार मौन

अमन लेखनी समाचार

गंदगी के चलते कभी भी संक्रामक रोग फैलने की आशंका

शुकुल बाजार, अमेठी। एक तरफ जहां केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर गांवों का समुचित विकास करा रही है तो वही प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के वजह से भाजपा के मातुत्व संगठन के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विद्याभारती द्वारा संचालित शुकुल बाजार कस्बे के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय इस विकास कोसे दूर है विद्यालय परिसर में बरसात व नाली का गंदा पानी और कीचड़ आ जाने से बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वही संक्रामक रोग का खतरा भी बढ़ गया है। प्रथनाध्यापक के मुताबिक विद्यालय के पास की नाली की मरम्मत करण व सफाई न होने से यह समस्या खड़ी हुई है। उन्होंने नाली और विद्यालय के सामने बनी नाली के सफाई



व मरम्तीकरण कराए जाने को लेकर बीडीओ को शिकायतें प्रेषित की गई हैं। विद्याभारती द्वारा शुकुल बाजार कस्बे में स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में इस समय बरसात व नाली का गंदा पानी और कीचड़ भरा रहा है। ऐसे में विद्यालय पढ़ने आने वाले बच्चों को अपने कक्षा तक जाने के लिए उस कीचड़ और उस गंदे पानी के बीच से होकर जाना पड़ता है। प्रथनाध्यापक ने

बताया कि सफाईकर्मी द्वारा नाले की सफाई नहीं की जाती है, जिसकी वजह से उसमें कीचड़ जमजमा रहा है। नाली का कीचड़ लिए गंदा पानी स्कूल परिसर में भी आ गया है। जिससे बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि गंदगी के चलते कभी भी संक्रामक रोग फैल सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने खंड विकास अधिकारी अंजलि सरोज को पत्र सौंप नाली और विद्यालय परिसर की सफाई करवाए जाने की बात कही है। उधर, बीडीओ ने इस समस्या के निराकरण किए जाने को लेकर सचिव को निर्देशित किया है। वही स्थानीय लोगों ने बताया कि इस सड़क व नाली की मरम्मत व सड़क की मरम्मत के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि से मिल कर उनसे लिखित रूप से मांग भी कर चुके हैं, पर हर बार जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन देकर लौटा दिया जाता है। स्थिति यह हो गई है कि लोगों ने अब इस समस्या से समझौता कर लिया है।

बसपा नेताओं ने किया हत्याकांड की निंदा

अमन लेखनी समाचार

अमेठी। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने तमिलनाडु प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉंग की जघन्य हत्या पर गहरा दुःख जताया है। बसपा नेताओं ने हत्याकांड की निंदा करते हुए तमिलनाडु सरकार से अविलम्ब सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को चेन्नई पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया। हत्याकांड के बारे में बसपा सुप्रीमो का ताजा बयान और फोटो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्व नाथ पाल ने घटना पर गहरा दुःख जताया और कहा कि बी एस पी ने एक क्रांतिकारी मिशनरी वंकर खो दिया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार अविलम्ब सख्त और जरूरी कार्रवाई करे। बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर प्रभारी और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिया लाल त्यागी ने कहा कि के आर्मस्ट्रॉंग की कल शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर भेजी गयी जघन्य हत्या से पूरे समाज में दुःख व आक्रोश की लहर। सरकार को अविलम्ब सख्त/जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को आगे रोका जा सके।

रैपुरा-मयास-नदियावां सम्पर्क मार्ग जर्जर, राहगीर परेशान

अमन लेखनी समाचार

अमेठी। जिले के विकास खण्ड जामो के नन्दमहर बाजार से नदियावां-मयास-रैपुरा सम्पर्क मार्ग जर्जर है। जगह-जगह पटरी क्षतिग्रस्त है। सड़क पर जानलेवा गडढे ऊभर आये हैं। गांव के लोग परेशान है।

सम्पर्क मार्ग की मरम्मत नहीं हुई। पुर्ननिर्माण ना होने से लोग परेशान है। रैपुरा के पींडत राम प्रताप पाण्डेय के घर पीड़ित परिवारों का आवागमन सदैव रहता है। लेकिन जर्जर सड़क पर मजबूरन लोग सफर करते है। लेकिन सड़क के ऊभरे गडढे लोगों को परेशान कर रहे है। सड़क मार्ग पर जगह-जगह जल भराव हल्की वारिस में हो जाता है। पूरे एम एल सी दीपक सिंह ने बताया कि सड़क मार्ग जर्जर है। शिकायत कई बार ग्रामीणों ने की है। विधायक का कहना है कि शिकायत अभी तक नहीं मिली है। शिकायत




मिली तो सड़क की मरम्मत होगी। कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष राम बरन कश्यप का कहना है कि बिगत लोक सभा चुनाव के दौरान मतदाताओं

ने नदियावां-मयास-रैपुरा सम्पर्क मार्ग बनवाने की मांग उठाई थी। पींडत राम प्रताप पाण्डेय ने भी सड़क बनवाने की बात उठाई थी। कांग्रेस सेवादल कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा से सड़क मार्ग पुर्ननिर्माण करवाने की मांग करेगा। जनता के साथ कांग्रेस सदैव रही है। और रहेगी। क्योंकि इसी मार्ग से बाबा नन्दमहर बाजार तक आवागमन है। हजारों लोग आते जाते है। समस्या के निराकरण की मांग जिलाधिकारी और अमेठी कांग्रेस सांसद से करेंगे। लोक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ता का कहना है कि सड़क मार्ग जर्जर है। इसकी खबर है। क्यों नही मरम्मत हुई। इसकी जानकारी नहीं है। शिकायत मिलती है। तो जांच पड़ताल करेंगे।

कालिका धाम में विक्टोरिया लाइट का उद्घाटन आज

अमन लेखनी समाचार

अमेठी। विकास खण्ड मुख्यालय पर स्थित माता कालिका धाम परिसर में लगी विक्टोरिया लाइट का उद्घाटन सोमवार को जगतगुरु शंकराचार्य करेगे। माता कालिका धाम परिसर में पूरे जीवधर मजरे भेंदुआ निवासी पींडत अवधेश नारायण पाण्डेय ने पचास विक्टोरिया लाइट लगावाया है। इससे मां कालिका धाम परिसर की सुंदरता में कां चान्द लगेगा। श्री पाण्डेय ने बताया इस का उद्घाटन सोमवार को मुख्य अतिथि जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य अयोध्या धाम करेगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी 1008 श्री हरिचैतन्य ब्रह्मचारी महाराज श्रीमत् परमहंस आश्रम टीकर माफी अमेठी करेगे। कार्यक्रम मे अतिथियों का सत्कार प्रधान भौसिंहपुर



अशोक कुमार उपाध्याय उर्फ रज्जू उपाध्याय करेगे। शाय 6 बजे कार्यक्रम के उद्घाटन सोमवार को समारोह पूर्वक सम्पन्न होगी। इस समय देवी भक्तों का जनसेवा उमडंगा। पुलिस थानाध्यक्ष संग्रामपुर गिरीश नारायण मिश्र कालिका धाम मन्दिर परिक्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करेगे। इस अवसर पर अतिथि गण विराजमान कार्यक्रम रहेगे।

अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर किया गया पौधरोपण

अमन लेखनी समाचार



के 52 पौधों का रोपण किया इस अवसर सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सपा पर्यावरण संरक्षण के प्रति कृत संकल्पित है और प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव ने वृक्षारोपण करवा कर गिनीज बुक अपना नाम भी दर्ज करवाया था, सपा सरकार में आम जनमानस के कल्याण में लिए किए गए विकास

कार्यों को जनता याद कर रही है। 2024 लोकसभा में ऐतिहासिक जीत के बाद आने वाले 2027 के विधान सभा चुनाव में सपा अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कार्यक्रम में प्रधान बलराम यादव दयाराम पाल चंद्रभान पांडेय बुजेश यादव मोहम्मद शहजाद करिया कोरी दीपक सिंह सीपी यादव लवकुश विकास वर्मा ई. संजय राकेश आशीष सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अपर पुलिस अधीक्षक ने जिले के समस्त थानों के न्यायालय पैरोकार के साथ की बैठक



अमन लेखनी समाचार

अमेठी। आज पुलिस कार्यालय सभागार गौरीगंज में अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी हरेन्द्र कुमार द्वारा न्यायिक सम्मन सेल सुलतानपुर/रायबरेली में नियुक्त व जनपद के समस्त थानों के न्यायालय पैरोकार के साथ गोष्ठी की गयी। गोष्ठी में हूमिशन शक्तिह अभियान के तहत महिला संबन्धी अपराधों जैसे-दहेज हत्या, दुर्कर्म, पाँसो

एक्ट, के साथ-साथ माफिया, टॉप 10 आदि अपराधों में न्यायालय में लॉबिअ और विचाराधीन चल रहे मुकदमों की पैरवी में प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया कि न्यायालय से जारी सम्मन, वारंट का तमीला समय से करवाकर गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत करें, जिससे मुकदमों का निस्तारण समय से हो सके व दीथियों को सजा दिलाई जा सके, जिससे जनता में न्याय की भावना उत्पन्न हो सके।



{ कवर स्टोरी / शिखर चंद जैन }

अपनाएं ये हैबिट्स

जिएंगे 100 साल

आ लग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया में 4,50,000 लोग ऐसे हैं, जो अपनी आयु का सैकड़ा लगा चुके हैं। आने वाले दिनों में उम्र की सेंचुरी लगाने में सफल होने वाले लोगों की संख्या और भी बढ़ सकती है। अगर आप भी अपनी लाइफ में सेंचुरी का आंकड़ा खूना चाहते हैं तो कुछ आदतों को अपने रूटीन में अपना लें।

सोशल सर्किल हो बड़ा

अगर आप अनजान लोगों से भी आसानी से घुल-मिल जाते हैं, अपने सहकर्मियों के साथ जिंदादिली से मिलते हैं, रिश्तेदारों के साथ मिलते-जुलते रहते हैं, दोस्तों के साथ जमकर ठहाके लगाते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ स्नेह और अपनेपन का संबंध रखते हैं, तो आपके शतकवीर होने की संभावना काफी ज्यादा है।

जांस होपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में जेरियाट्रिक मेडिसिन (बूढ़े लोगों की चिकित्सा) के वरिष्ठ प्रोफेसर जेरेमी वाल्स्टन कहते हैं, 'अकेले और गुमसुम रहने वाले लोग अक्सर बीमार रहने लगते हैं।' दीर्घायु लोगों की खोज और उन पर अध्ययन करने के लिए दुनिया भर की सैर कर चुके नेशनल ज्योग्राफिक के शोधकर्ता डैन बटनर कहते हैं, 'इटली के सरडीनिया में सौ साल की आयु पार कर चुके लोगों की बड़ी संख्या है और ये लोग दोस्ती और जिंदादिली के कारण ही स्वस्थ और खुश रहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसका पड़ोसी तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। इससे जल्द स्वस्थ होने में मदद मिलती है।'

खोजें जीने का मकसद

बिना मकसद को जिनकी कुछ ऐसी ही होती है, जैसे बिना पते का लिफाफा। जिन्होंने अपने जीवन में ना कोई लक्ष्य तय कर रखा है और ना उन्हें जीने का मकसद मालूम है, उनकी जिंदगी में दिलचस्पी भी कम होती चली जाती है। लेकिन जो किसी मकसद से जीते हैं और किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सतत प्रयासशील रहते हैं, उनमें जिंदगी के प्रति उमंग रहती है और वे मानसिक और शारीरिक रूप से क्रियाशील रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर लंबी आयु जीते हैं।

साइकोलॉजिकल साइंस जर्नल में प्रकाशित एक शोध में भी अनुसंधानकर्ताओं ने ऐसी राय जाहिर की है। न्यूयॉर्क सिटी (अमेरिका) के माउंट सिनाई में स्थित इशान स्कूल ऑफ मेडिसिन के जेरियाट्रिक प्रोफेसर रोजेन लीपजिंग कहते हैं कि आपको नए दोस्त बनाने चाहिए, नई हॉबीज अपनानी चाहिए और सामाजिक कार्यों में बाल्टियर के तौर पर सपोर्ट देना चाहिए।

वेत पर रखें कंट्रोल

जिसने अपनी सेहत की लगाम ढीली छोड़ दी और वेत, डाइट पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसके जिंदगी की फीलड पर जल्दी आउट होने के चांस बढ़ जाते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए शोधों के नतीजे बताते हैं कि जिन महिलाओं के कमर की माप 37 इंच या उससे बढा थी, 40 वर्ष की उम्र के बाद उनकी आयु दूसरी महिलाओं (27 इंच या कम कमर वाली) की तुलना में 5 वर्ष तक

स्वस्थ, निरोग और दीर्घायु की कामना अधिकांश लोग करते हैं। वास्तव में ये सब हासिल करना बहुत कठिन नहीं है। इसके लिए आपको अपनी जीवनशैली में कुछ बदलाव करने होंगे, कुछ गूड हैबिट्स अपनानी होंगी और कुछ बैड हैबिट्स को बाय-बाय कहना होगा। इसके बाद तो आप लाइफ की सेंचुरी लगा सकते हैं।

हियरिंग लॉस की वजह बनता हेडफोन-ईयरफोन

जब से स्मार्टफोन और उससे कनेक्टेड हेडफोन/ईयरफोन का ट्रेंड बढ़ा है, दुनिया भर में हियरिंग लॉस के केसेस में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। यह हैबिट कितनी हार्मफुल है और इससे बचना कितना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए।

{ टेक्नोबिहेवियर डॉ. मौनिका शर्मा }

पार्थ गायिका अलका यागिनिक ने पिछले दिनों खुलासा किया था कि वे सुनने से जुड़े एक दुर्लभ डिस्ऑर्डर की शिकार हो गई हैं। अपनी सुरीली आवाज के लिए जानी जाने वाली इस चर्चित गायिका के अनुसार, 'डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मैं सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस का शिकार हो गई हूँ। वायरल अटैक के कारण इस बहरेपन का पता चला है।' अपनी स्वास्थ्य समस्या को साझा करते हुए अलका यागिनिक ने लोगों को बहुत तेज संगीत और हेडफोन से फास्ट म्यूजिक सुनने को लेकर सावधान किया है। देश के एक चर्चित चेहरे की यह सलाह बहुत से लोगों के लिए चेतावनी के समान है। मौजूदा दौर में हर ओर यही देखने में आता है कि एक्सरसाइज, वॉक, ट्रेवेलिंग या फिर दूसरे कोई धरलू काम निपटाते हुए भी बहुत से लोग ईयरफोन या हेडफोन लगाए रहते हैं। यह अपने परिवेश से खुद को अलग करने वाला बर्ताव तो है ही, बीमारियों को न्योता देने वाली आदत भी है। जरूरी है कि समय रहते सजगता बरती जाए।



लिफे स्मार्ट फोन की लत से बचना पहला कदम है। आज के समय में हर कहीं इंटरनेट का उपलब्ध होना और डिजिटल मीडिया में देखने-सुनने के लिए मौजूद सामग्री की भरमार भी यूजर्स द्वारा हर पल कार्नों में ईयरफोन लगाए रखने का कारण बन रही है। ऐसे में जर्सी है मीटिंग्स, स्कूल-कॉलेज की क्लास या आवश्यक बातचीत के लिए कुछ समय ईयरफोन का इस्तेमाल किया जा सकता है पर लंबे समय तक ऐसा करना घातक है। इससे धीरे-धीरे सुनने और समझने की क्षमता भी प्रभावित होने लगती है। ड्राइविंग के दौरान हेडफोन या ईयरफोन लगाए रहना अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी जोखिम पैदा करने वाला बर्ताव है। घर-परिवार में ईयरफोन लगाकर रखने वाले लोग अपनों की बात भी सहजता से नहीं सुनते-समझते। यह स्थिति सार्थक संवाद में बाधा बनती है। असल में टेक्नोलॉजिकल

रेवोल्यूशन के नाम पर अपने परिवेश से दूर होने के अनगिनत खामियाजे हैं। स्मार्टफोन और इंटरनेट को एक संगीत की तरह समझते हुए सधकर इन सुविधाओं का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है।

पैरेंट्स रखें बच्चों का ध्यान: कैलिफोर्निया के ऑस्टियोपैथिक बाल रोग विशेषज्ञ, जेम्स ई. फॉय, कहते हैं कि लंबे समय तक तेज आवाज में हेडफोन सुनने से बच्चों और किशोरों में हमेशा के लिए सुनने की क्षमता कम हो सकती है। असल में हेडफोन और हियरिंग लॉस का सीधा संबंध है। मौजूदा समय में 5 में से 1 किशोर किसी भी किसी रूप में हियरिंग लॉस का अनुभव करता है। बीते 20 साल में यह आंकड़ा लगभग 30 फीसदी बढ़ गया है। हियरिंग लॉस के बढ़ते आंकड़े के पीछे हेडफोन का बढ़ता इस्तेमाल अहम वजह है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि दुनिया भर में करीब 1 अरब युवा ईयरफोन लगाकर सुनने की असुरक्षित आदतों के कारण सुनने की क्षमता खोने के जोखिम में हो सकते हैं। डब्ल्यूएचओ द्वारा यह चेतावनी भी दी जा चुकी है कि ईयरफोन के अधिक इस्तेमाल से 2050 तक 70 करोड़ से ज्यादा लोग हियरिंग लॉस का शिकार बन सकते हैं। ऐसे में पैरेंट्स समय रहते अपने बच्चों को इन तकनीकी सुविधाओं के इस्तेमाल की आति से बचाएं। *

कम हो सकती है। इसी प्रकार 35 इंच या कम कमर की माप वाले पुरुषों की तुलना में 43 इंच या उससे ज्यादा कमर के घेरे वाले पुरुषों की आयु में तीन साल तक की कटौती हो सकती है। जाहिर है, अगर आपने अपने कमर के घेरे यानी बॉडी वेत पर कंट्रोल कर रखा है तो आपकी आयु लंबी होने की संभावना बढ़ जाती है।

मिड एज में भी रहें फिजिकल एक्टिव

यंग एज में ही नहीं मिड एज में भी अगर आप खुब चलते-फिरते हैं, शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हैं, तो बाद में भी आपके स्वस्थ रहने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। 'आर्चीव्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन' में प्रकाशित अध्ययन के नतीजे कुछ ऐसा ही संकेत करते हैं।



मध्यवय के 19,000 वयस्कों पर अध्ययन करने के बाद सेहत विज्ञानियों ने पाया कि जो लोग इस उम्र तक फिट रहते हैं आगे चलकर उनमें हार्ट डिजीज, टाइप-2 डायबिटीज, कैंसर, अल्जाइमर्स आदि रोग होने की संभावना तुलनात्मक रूप से कम होती है। जांस होपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर जेरेमी वाल्स्टन कहते हैं, 'जो लोग अपनी जिंदगी में भागते-दौड़ते रहते हैं, वॉकिंग करते हैं या साइकिल चलाते रहते हैं, वे लंबी आयु के स्वामी होते हैं।'

ताजे फल-सब्जियों का सेवन

मिशिगन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध में पता चला है कि फल और सब्जियों का भरपूर सेवन करने वाली महिलाओं की आयु, फल-सब्जी कम खाने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक होती है। इन महिलाओं की फल-सब्जी खाने की आदत का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इनसे पूछताछ के साथ इनके रक्त की जांच भी की। विशेषज्ञ बताते हैं कि दीर्घायु होने में फल-सब्जियों की महती भूमिका का जीता-जागता सबूत है जापान के ओकीनावा में रहने वाले शतायु वृजुगों। इस शहर में दुनिया की किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले सबसे ज्यादा सौ वर्षीय या ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं। यहां प्रति लाख 50 लोग सौ साल से ज्यादा उम्र के मिलेंगे। इस शहर के लोगों में प्लांट बेस्ड डाइट खाने की आदत है। इनमें से ज्यादातर लोग इन फल-सब्जियों को खुद अपने बगीचे में उगाना पसंद करते हैं। *

ये हैबिट्स भी हैं कारगर


- ▶ अगर आप जिंदादिल, हंसोड़ और आशावादी हैं तो आपकी आयु सौ के पार जाने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। 'एजिंग' जर्नल में प्रकाशित एक शोध के नतीजों से पता चला है कि ऐसे लोग स्ट्रेस और एंजायटी से बचे रहते हैं, इसलिए इनकी आयु रूखे स्वभाव वाले लोगों की तुलना में ज्यादा होती है।
- ▶ आप खुद को असली उम्र से कम फील करते हैं और अक्सर दूसरे लोग भी ऐसा ही आकलन करते हैं, तो तय मानिए कि आप चिरायु होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार खुद को वास्तविक उम्र से अधिक का समझने वाले और जल्दी ही बूढ़े दिखने वाले लोग अक्सर कम उम्र में ही चल बसते हैं।
- ▶ आप मेडिटरेनियन डाइट लेते हैं तो आपकी आयु शान्ति या ज्यादा होगी। साबुत अनाज, मेवे, लेग्यूम्स, ऑलिव आयल के साथ-साथ फलों और सब्जियों का सेवन करने से शरीर को भरपूर पोषण मिलता है और कोशिकाएं निरंतर रीजेनरेट होती रहती हैं। *



रोज अपनी कालोनी से मिंटो पार्क तक सुबह साथ-साथ टहलने जाने और घंटों साथ रहने वाले दोनों वृद्ध पड़ोसी इस बार एक सप्ताह के बाद मिले थे।

'कहाँ भाई वरमा! कहां निकल गए थे। सुना है बहुत लंबा दूर कर आए। क्यों सब खिरियत तो है?' पड़ोसी माथुर जी ने पूछा। 'क्या बताऊं यार! अपनी लड़की की शादी के सिलसिले में निकला था। पहले मुजफ्फरपुर गया, वहां से रांची फिर हजारीबाग, इसके बाद पटना से बक्सर होते हुए कल ही वापस लौटा हूँ। लेकिन इस यात्रा में एक अजूबा हुआ। तुम सुनोगे तो सहसा विश्वास नहीं करोगे।' वरमा जी बोले। 'ऐ! अजूबा...? कैसा अजूबा...? मैं भी तो सुनूँ जरा!' माथुर जी जानने के लिए आतुर हुए। 'हुआ यह कि मैं पूरे एक हफ्ते बस और ट्रेन की यात्रा करता रहा, लेकिन रास्ते में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई। ना कोई एक्सीडेंट, ना कहीं तोड़-फोड़, ना चक्काजाम, ना प्रदर्शन, ना ट्रेन डकैती, ना बस में चोरी, ना लूटपाट... कुछ भी नहीं हुआ। कहीं कोई वारदात नहीं हुई। मैं जैसे गया था, यहां से वैसे ही सकुशल वापस आ गया। बोलो है न अजूबे की बात?' माथुर जी तुरंत बोले, 'बस... इतनी सी बात। अब मेरी सुनो। मेरे साथ तो इससे भी अधिक अजूबे की बात हुई। तुम्हें तो पता ही है कि गांव में मेरी थोड़ी-सी पुरतनी जमीन पड़ी हुई थी।'

मैंने सोचा बच्चों को तो अब लौट कर गांव जाना नहीं है और अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पका आम हूँ कब टपक पड़ूँ, पता नहीं। सो मन हुआ कि उस



जमीन को बेच दूँ। इसी सिलसिले में मैं गांव गया था। सचमुच यार! मुझे यह देख कर बहुत हैरानी हुई कि तहसील की खसरा, खतौनी में वह जमीन अभी भी मेरे ही नाम थी। बताओ यह अजूबे की बात नहीं तो भला और क्या है? और उससे भी अधिक अजूबे की बात तो यह हुई कि मैं उस जमीन को बेच कर, पूरे अस्सी हजार रूपए नकद लेकर अपने गांव से यहां तक बिल्कुल सही-सलामत वापस आ गया। माथुर जी ने अपने पड़ोसी वरमा जी से कहा। 'हूँ...! बात तो वाकई अजूबे की है!' कह कर वरमा जी ने एक गहरी सांस ली। इसके बाद दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। उन्हें मन ही मन बहुत आश्चर्य हो रहा था। *

{ लघुकथा / अखिलेश श्रीवास्तव 'चमन' }

अजूबा

उनके भीतर निंदा रस का स्राव होता रहता है। वे जितना अधिक निंदा करते हैं, उनकी कोशिकाएं उतनी ही फलती-फूलती हैं। लगता है उनकी यह आदत डीएनए की तरह ही अजर-अमर है। उनके भीतर के डीएनए को भी सदा जीवित रहने के लिए वरदान प्राप्त है। उनकी कोशिकाएं भी गॉसिप से ही ताजी बनी रहती हैं।

इधर की इनफॉर्मेशन उधर करने वाले

{ व्यंग्य / सतीश उपाध्याय }

कि सी की शादी, जलसा हो या ऑफिस में किसी की ज्वॉइनिंग या रिटायरमेंट सबसे पहले 'उन्हीं' को जानकारी मिलती है। फटाक से जानकारी हासिल करने के मामले में उनकी 'सोशल स्किल' बहुत तगड़ी है। वे चुगली नहीं करते बल्कि नई इनफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है, गॉसिपिंग के मामले में उनके ब्रेन की संरचना पर रिसर्च भी किया जा सकता है। किसी की लाइफ में कोई परेशानी हो या कोई फील गुड, वे तो ताड़ ही जाते हैं। ताड़ने के बाद, फिर वे अर्जित जानकारी का 'तिल का ताड़' बना देते हैं। इस काम में भी वे इतने परफेक्ट हैं कि लगता है कि ये खूबी उनको अपने ही डीएनए से मिली है। उनके भीतर निंदा रस का स्राव होता रहता है। वे जितना अधिक निंदा करते हैं, उनकी कोशिकाएं उतनी ही फलती-फूलती हैं। लगता है उनकी यह आदत डीएनए की तरह ही अजर-अमर है। उनके भीतर के डीएनए को भी सदा जीवित रहने के लिए वरदान प्राप्त है। उनकी कोशिकाएं भी गॉसिप से ही ताजी बनी रहती हैं। सोसाइटी के बाकी लोगों से अलग हटकर उनमें कई खूबियां हैं। वे गजब हैं, टोमी की तरह तेज घ्राणशक्ति भी रखते हैं। उनकी आदत, ऑफिस हो या



कोई भी लोकलिटि, आस-पड़ोस सभी जगह सक्रिय रहती है। फैमिली, रिश्तेदार, पास-पड़ोस सबकी जिंदगी के बारे में उन्हें, उनके ही हिसाब से जानकारी रहती है। ऐसे ही लोगों के भीतर निंदा रस ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए उनकी सोशल इनफॉर्मेशन बहुत तगड़ी है। यही निंदा रस उन्हें हेलदी बनाए हुए है। वे निंदा कर फील गुड करते हैं। जब वे किसी की निंदा करते

हैं, तब उनके भीतर ऑक्सिटीसिन हार्मोंस का स्तर बढ़ जाता है। इस हार्मोंस की वजह से वह जब-जब जिसकी, जितनी गहरी निंदा करते, वे उस समय उतने ही प्रसन्न भी रहते हैं। तब उनके हार्मोंस का स्तर सिर चढ़कर बोलने लगता, अपनी बात की प्रामाणिकता के लिए कसम भी खाते और कान के एकदम नजदीक आकर फुसफुसाते, 'मैंने अपनी आंखों से देखा है।' ऐसे लोगों के लिए ही कबीर ने कहा है- 'आंगन कुटी छयाय।' वे निकट बने रहेंगे तो हमारी कमजोरी पर उनकी निगाह रहेगी। हम दुरुस्त रहेंगे। अपने निंदा रस को बढ़ाने के लिए वे प्रायः महफिल खोजते हैं। जहां वे अपनी स्किल को बड़ा सकें। इससे उनके दिल और दिमाग की सेहत दुरुस्त रहती है। उनके बातचीत का केंद्रीय विषय दूसरों की निंदा ही होती है। इसी में उन्हें खुशी का एहसास होता है। जब तक दो-चार लोगों की, दूसरों की निंदा ना कर लें, वे बेचैन रहते हैं। उनके मैसल्फ में कई मौलिक विचार जागृत होते रहते हैं। ऐसा लगता है, जिस प्रकार हर नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है, उन्हें भी निंदा करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरों की निंदा में उन्होंने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है, शायद परमात्मा ने उन्हें जीवन निंदा करने के लिए ही दिया है। उनके हृदय में निंदा, उत्सव की तरह विराजमान रहता है। जब-जब वे निंदा करते हैं, तब-तब उनका उत्सव संपादित हो जाता है। उनके दिल में, कॉलोनी के लोगों से जुड़े अलग-अलग मौलिक किस्से मौजूद रहते हैं। अवकाश के दिनों में तो उनके पास रमानियत के कई काल्पनिक किस्सों का इजाफा हो जाता है। खैर वक्त तो लगा, वे पहचाने गए। समय के साथ पूरी कॉलोनी भी विवेकवान और उनसे सतर्क हो गई है। अब उनसे कॉलोनी बहुत दूर होती जा रही है। एक दिन पूरी कॉलोनी वालों ने ताड़ लिया कि वे हमारी 'आदर्श कॉलोनी' को छोड़कर 'सामा कॉलोनी' शिफ्ट कर रहे हैं। *